बर्ष :-04 **अंक**:-315 मुरादाबाद 08 March 2025

(Saturday) पृष्ठ:-08

मूल्यः- 3.00 रूपया

भारत सरकार से रजिस्टर्ड RNI No.UPBIL/2021/83001

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

अयोध्या-काशी के बाद अब मथुरा की बारी.

बरसाना में सीएम योगी ने खेली फूलों

की होली, दे गए ये आश्वासन

मथुरा के बरसाना में सीएम योगी होली महोत्सव में पहुंचे। यहां सजे मंच पर भव्य रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मंच पर सीएम योगी के आते ही कै बिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण, शैलजकांत मिश्र, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, पूरन प्रकाश विधायक आदि ने पटुका पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज की रज में कन्हैया के दर्शन हर कोई करता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार-बार यहां आने का



फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या मे खरीदी जमीन हरिवश बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टी अयोध्या में फिल्म अभिनेता

अमिताभ बच्चन ने जमीन खरीद ली है। हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर रजिस्ट्री हो गई है। यूपी के अयोध्या में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने जमीन खरीदी है। अब वह गंगा किनारे वाले ही नहीं बल्कि सरयू किनारे वाले भी कहलाएंगे। अमिताभ बच्चन ने अपने पिता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से रामनगरी में 20 बिस्वा जमीन खरीदी है इसकी कीमत लगभग 86 लाख रुपए है। इसकी रजिस्ट्री सब रजिस्टार सदर के ऑफिस में 31 जनवरी 2025 को हुई।अभिनेता ने जो जमीन खरीदी है, वह राम मंदिर से लगभग सात किलोमीटर दूर सरयू नदी के पास तिहुरा माझा में है। इससे पहले भी अयोध्या में अमिताभ बच्चन की ओर से जमीन खरीदने की बात सामने आई थी। लेकिन, उस समय रजिस्ट्री नहीं हुई थी। अब 31 जनवरी 2025 को अमिताभ बच्चन ने अपने पिता के नाम बने ट्रस्ट हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदी गई



की महिलाओं के खाते में 2500

आएंगे। कल महिला दिवस है,

अब सिर्फ एक दिन बाकी है।

मुझे उम्मीद है 8 मार्च (महिला

दिवस) के दिन महिलाओं के

मौका मिलता है। आगे कहा कि होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि डाले। सनातन की एकता का यहां काशी, अयोध्या और अकल्प समागम दुनिया ने देखा। मथुरा, ये तीनों तीर्थ स्थल इसकी सफलता के लिए सनातन एकता के प्रतीक के सनातिनयों का आभार जताया। रूप में मौजूद हैं। उन्होंने आगे भारत के तीन तीर्थ में काशी उत्तर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और भी इसी उत्तर प्रदेश में है और विकास की नई परंपरा स्थापित कृष्ण कन्हैया की पावन हुई है, जिसका परिणाम हाल जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। ही में संपन्न प्रयागराज महाकुम्भ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत के भव्य आयोजन के रूप में देखने को मिला। उन्होंने कहा वह महाकुंभ में देखने को मिली कि जो जितना सनातन धर्म के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाफ बोलता था, अफवाह अपने एक दिवसीय दौरे पर फैलाता था और तर्कहीन बातें करता था, उन्हें सनातन धर्मावलम्बियों ने महाकुम्भ के जरिए करारा जवाब दिया है। महाकुम्भ सनातन धर्म का दुर्लभतम क्षण बन गया है। होली एकता और सद्भाव का त्योहार- सीएम योगी ने होली को एकता का सूत्र बताते हुए कहा कि होली आपसी सद्भाव और दूरियों को मिटाने का त्योहार है। महाकुम्भ ने जहां दुनिया को एकता का संदेश दिया, वहीं होली इसे और मजबूत करती है। उन्होंने बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली और लड्डमार होली का जिक्र

को बुधवार के दिन, प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में

आयोजित रैली में दिल्ली की

माताओं-बहनों से वादा किया

था कि भाजपा सरकार बनते ही

निवेदन- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में ब्रज भूमि के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा साथ बरसाना को विकास से जोड़ा जा रहा है। पहली बार बरसाना में रोपवे की सुविधा शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि महाकुम्भ सकुशल सम्पन्न होने के बाद अब फ़ुरसत मिली है। काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मां विंध्यवासिनी धाम के विकास किया कि मथुरा, बरसाना, ब्रजभूमि के विकास के लिए कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह होली के अवसर पर श्री राधारानी जी के श्रीचरणों में इसी निवेदन के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने दिल्ली में रामभक्तों की सरकार आने का जिक्र करते हुए यमुना के संरक्षण का वादा दोहराया। सीएम ने कहा कि अब यम्ना मइया भी गंगा मां की तरह निर्मल और अविरल होंगी। बरसाना ब्रह्मा, नंदगांव शिव और गोवर्धन विष्णु जी का प्रतीक- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संतों का सम्मान किया और

ब्रज भूमि के विकास का किबरसाना ब्रह्मा, नंदगांव शिव और गोवर्धन विष्णु जी का प्रतीक है। यह ब्रज भूमि हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आशीर्वाद का केंद्र है। मुख्यमंत्री कि करोड़ों की योजनाओं के ने कहा कि डबल इंजन की सरकार सुरक्षा, विकास और समृद्धि की गारंटी है। होली के इस पावन अवसर पर ब्रज भूमि के विकास को नई गति मिलेगी। सीएम ने इससे पहले श्री लाडली जी महाराज के मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश के कल्याण की कामना की। ये रहे के उपरांत अब बारी इसी पुण्य मौजूद -स अवसर पर संतजन भूमि की है। सीएम ने आश्वस्त विनोद बाबा, रामसुख दास फलहारी बाबा, मंत्रीगण संदीप सिंह, चौधरी लक्ष्मी नारायण, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, विधायकगण मेघश्याम सिंह, पूरण प्रकाश, राजेश चौधरी, योगेश चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह, भाजपा नेता निर्भय पांडेय, घनश्याम सिंह लोधी. पंचायत अध्यक्ष बरसाना विजय सिंह, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र आदि मौजूद रहे। वहीं

हमारी माताओं-बहनों को उनके

खातों में 2500 रुपए मिलने का

मैसेज उनके मोबाइल पर जरुर

राहुल से पहले कांग्रेस

महासचिव (संगठन) के सी

वेण्गोपाल अहमदाबाद पहुंचे।

उन्होंने राहुल के दौरे के संबंध में

जिला कांग्रेस समितियों (डीसीसी) के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय पर विचार के कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। केवल तीसरा मौका- गुजरात के अहमदाबाद में अप्रैल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 139 साल पुरानी पार्टी का गुजरात में यह सम्मेलन तीसरी बार होगा। इससे पहले 1936 और 1961 में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साल 1961 के 64 साल बाद

कहा कि गुजरात में राहुल गांधी यह सम्मेलन गुजरात में होगा। कांग्रेस और गुजरात का खास नाता है- गुजरात में कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 1938 में बारदोली के हरिपुरा में हुआ था। यह सम्मेलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यह सम्मेलन बारदोली सत्याग्रह की 10वीं वर्षगांठ पर हुआ था। इस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता मिलने के बाद सरकार चलाने की रूपरेखा बताई थी। उन्होंने योजना आयोग बनाने और पंचवर्षीय योजना बनाने का सुझाव दिया था। उनके सुझाव को 12 साल बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने लागु किया था।

सीएम अब्दुल्ला ने ३७० हटने के बाद पेश किया पहला बजटः कहा- यह आर्थिक विकास के लिए एक रोड़मैप है



पहला बजट पेश करते हुए इसे आर्थिक विकास का रोडमैप और जनता की आकांक्षाओं का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने का छह साल बाद पहला बजट प्रस्तुत किया और इसे आर्थिक और जनता की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिबिंब बताया। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन के आभार किया।सीएम अब्दुल्ला ने कहा मुझे जम्मू और कश्मीर का वित्त मंत्री होते हुए पहला बजट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है। यह आर्थिक विकास के लिए एक रोडमैप है और जनता की प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की

आकांक्षाओं का सच्चा साल बाद जम्मू-कश्मीर का प्रतिबिंब है। जिन्होंने अपना बजट भाषण एक फारसी कविता से शुरू किया। यह बजट पिछले साल अक्तूबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सत्ता में आने के बाद पहला है, शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर जब छह साल के बाद केंद्रीय शासन का समापन हुआ। जम्मू और कश्मीर से 5 अगस्त 2019 विकास के लिए एक रोडमैप को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था, और 2018 में पीडीपी-बीजेपी सरकार के तहत आखिरी बजट सत्र हुआ था। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने सदन में कहा हमारी चुनौतियां विशाल हैं और हमारी सीमाएं कई हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का डटकर सामना करने का संकल्प लेना चाहिए। इस पहले बजट को हमारी जनता के सपनों, हमारे भविष्य में सुधार (दो एम्स, 10 नए पीढ़ियों की जरूरतों और जम्मू और कश्मीर के हर नागरिक की आकांक्षाओं का सच्चा

का दर्जा बहाल करना लोगों की गहरी आकांक्षा है और हमारी सरकार इसके समाधान के लिए दृढ़ संकल्पित है। बजट प्रस्तुत करने से पहले अब्दुल्ला ने एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन बजट प्रस्तुत करेंगे। अब्दुल्ला बोले- सात साल पहले मजाक-मजाक में बजट प्रस्तुत करने के लिए अभियन कर रहा था सात साल पहले, मैं मजाक करते हुए वित्त मंत्रियों की तरह विधानसभा और संसद में बजट प्रस्तुत करने के लिए अपना ब्रीफकेस उठाने का अभिनय कर रहा था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यह असल में करूंगा। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह दिवंगत बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के साथ ब्रीफकेस लेकर चल रहे थे। जम्मू-कश्मीर बजट की अहम बातें- 1- कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन 2-2.88 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन 3- पर्यटन के लिए 390.20 करोड़ रुपयों का प्रावधान 4- 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा 5- स्वास्थ्य क्षेत्र नर्सिंग कॉलेज) 6- फिल्म नीति की शुरुआत (खेल और इको टूरिज्म का केंद्र बनाने का

है। जम्मू और कश्मीर का राज्य

राहुल गांधी का दो दिवसीय गुजरात दौरा, प्रमुख कांग्रेस

कांग्रेस ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि गांधी ने पहले कहा था कि पार्टी 2027 का गुजरात विधानसभा चुनाव जीतेगी और चुनाव को लेकर काम शुरू करने के लिए वह राज्य का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में 1995 से भाजपा सत्ता में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के तहत शुक्रवार को सुबह अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान वह पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित होगी। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता पालदी इलाके में कांग्रेस की गुजरात इकाई के मुख्यालय गए। पार्टी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेताओं सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बाद में वह राज्य के राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों के साथ बैठक में शामिल होंगे। पूरी उम्मीद है कि कल दिल्ली की राहुल के दौरे का मकसद-



करते हुए सनातन धर्म की अद्भुत देश-दुनिया से आए लोगों को गीतांजली शर्मा ने अपने समूह परंपराओं की सराहना की। होली व रंगोत्सव की के साथ नृत्य के जरिए फूलों राधा और श्री कृष्ण के दर्शन श्रीराधारानी के श्रीचरणों में शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा की होली पर विशेष प्रस्तुति दी। '8 मार्च याद है न': उम्मीद है 2500 रूपये का मैसेज आएगा आतिशी ने सीएम रेखा को पत्र लिख याद दिलाया च्ड का वादा आतिशी ने लिखा है कि पीएम है। पूरी दिल्ली की महिलाएं इस 'मुझे उम्मीद है 8 मार्च (महिला दिवस) के दिन महिलाओं को उनके खाते मोदी ने वादा किया था कि दिन का बेसब्री से इंतजार कर महिला दिवस पर दिल्ली की 2500 रुपये आने का सेज उनके मोबाइल में रही हैं। वे उम्मीद लगाए बैठी हैं महिलाओं के खाते में 2500 कि 8 मार्च से उनके अकाउंट में आएंगे। कल महिला दिवस है, पहली किश्त आनी शुरू हो अब सिर्फ एक दिन बाकी जाएगी, जैसा कि भाजपा ने मोबाइल में 2500 रुपये उनके पहली कैबिनेट बैठक में ?2500 है।दिल्ली विधानसभा में नेता खाते में आने का मैसेज आ वादा किया था। मुख्यमंत्री जी, प्रतिमाह देने की योजना पास प्रतिपक्ष आतिशी ने महिला जाएगा। आतिशी ने अपने पत्र दिल्ली की महिलाओं को उनका होगी और महिला दिवस पर समृद्धि योजना को लेकर हक दिलाने के लिए तुरंत उनके में लिखा, दिल्ली की लाखों महिलाओं के खातों में पैसे आने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र खातों में पैसे ट्रांसफर किए माताओं-बहनों की ओर से शुरू हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने लिखा है। आतिशी ने लिखा है जाएं। दिल्ली की हर महिला आपको यह पत्र लिख रही हूं सभी महिलाओं को सलाह दी कि पीएम मोदी ने वादा किया और आपको याद दिलाना आपकी ओर देख रही है, उनकी थी कि वे अपने बैंक खाते से था कि महिला दिवस पर दिल्ली उम्मीदें ट्रटनी नहीं चाहिए। मुझे चाहती हूं कि 31 जनवरी 2025 अपने मोबाइल नंबर को जोड़

लें, ताकि जब उनके अकाउंट

में पैसे आएंगे तो उनके फोन पर

इसकी जानकारी मिल सके।

उन्होंने आगे लिखा, अब महिला

दिवस में सिर्फ एक दिन बचा

संपादकीय Editorial

Peels

How can a history of about 300 years be relevant today? If history is not relevant, then why should we discuss the emperors. invaders and dictators of that time? Today we are citizens of an independent. democratic and sovereign nation, then why should we discuss that past whose history has been written with prejudice and false thinking? The irony of India is that the democratic politics here is almost divided On one side is BJP and its allies and on the other side is the anti-BJP group. In such a situation, Mughal emperors like Babar, Akbar and Aurangzeb are also the so-called ideals of that politics which is ideologically anti-BJP. However, it is clear from contemporary history, events and public opinion that most of the Muslims neither consider these emperors as their ideals nor do they vote in their name. However, a group supporting Aurangzeb is also active in our country and it is an educated and aware group, but what to do, it is strongly opposed to right-wing politics, so it also likes Aurangzeb. At present, the topic is about Maharashtra Samajwadi Party president and MLA Abu Azmi. He has considered Aurangzeb to be a liberal and great king. The fundamental right of 'freedom of expression' given in the Constitution should neither be used as a shield nor its wrong interpretation is acceptable. Since the request to suspend Abu Azmi from the House was made by Deputy Chief Minister Eknath Shinde and almost the entire House was in support, of course the Congress faces were silent, so Azmi was suspended from the House for the entire budget session. Shiv Sena's Uddhav Thackeray has demanded the permanent termination of Abu Azmi's membership. Uddhav and SP are partners in the opposition alliance. What kind of alliance is this! Anyway, there are constitutional provisions on the privilege of the Assembly Speaker and there are also decisions of the Supreme Court that if a member has made some objectionable statement or done some activity outside the House, then he cannot be suspended. It is also the privilege of an elected member to be present in the House, but this is not the subject of our analysis. Since the way the SP leader has glorified Aurangzeb has become an issue in UP, Bihar and other parts of the country, apart from Maharashtra, it is a question for us as well that on what basis should Aurangzeb be considered a liberal and great king? Abu is considered a staunch opponent of BJP-oriented politics. Can a king be considered liberal, humane and a temple-builder on this basis? Aurangzeb had imprisoned his father Shah Jahan in the Agra Fort and made him yearn for every drop of water. Shah Jahan had written in his autobiography, "Oh God! Don't give birth to such a wretched son in any house.' Not only this, Aurangzeb had imprisoned his own brother Dara Shikoh in a cage and paraded him around Delhi's Chandni Chowk. The tale of his atrocities is long Glorification is not right.

Waqf Bill is in the interest of poor Muslims, the path of betterment of Muslim women and people of Pasmanda class will open

Waqf Bill Under the guise of Waqf, land mafias arose in many places, who captured the graveyards and started taking advantage of every benefit from the government. Land mafias are selling Waqf land as personal property and are charging huge rent by building big shopping complexes by leasing it at nominal prices. Recently, the Union Cabinet approved all 14 amendments to the Waqf Amendment Bill, 2024 proposed by the Joint Parliamentary Committee (JPC) headed by Jagdambika Pal. It is expected to be introduced in Parliament in the second part of the budget session. This amendment bill talks about removing some provisions of the Waqf Act, 1995 with the aim of removing the irregularities and anomalies prevailing in the Waqf Board. The government says that this will improve the management of the Waqf Board. The objective of this bill is to increase transparency and accountability in the management of Waqf properties, to control corruption etc., to promote the development and conservation of Waqf properties as well as to ensure that Waqf properties are used only for the benefit of the stakeholder community. Despite these claims of the government, this proposed bill is being opposed by the opposition, a section of Ulemas and so-called secular-liberal intellectuals. The All India Muslim Personal Law Board has announced a big demonstration against the Waqf Amendment Bill. Those opposing this bill have some arguments and apprehensions of their own. They consider it to be an interference by the government on the rights of the Muslim community. They believe that this bill interferes with religious freedom and the management of Waqf properties. In the context of this bill, not only the ruling party and the opposition have their own arguments, but even within the Muslim community for which this bill is being brought, there are different reactions to this bill. Muslim society is considered to be an egalitarian society, but in practice, discrimination and stratification is visible even in the Indian Muslim society. Caste system exists among Muslims in the Indian subcontinent. Three major categories are observed in it. Ashraf are considered to be upper class Muslims who claim to be of Arabic, Turkish, Persian or Afghan descent. Ashraf include higher castes like Syed, Sheikh, Pathan and Mughal. Ajalaf are considered to be lower class Muslims who are related to converted Hindus. This category includes artisans, farmers and working class Muslims. Arzal are considered to be the lowest class Muslims who are mainly converted from Dalit castes. They are placed at the last rung in the society. These two lower Muslim classes together form the group 'Pasmanda Muslim'. Pasmanda Muslim is a socio-economic and caste category which refers to the backward and disadvantaged sections of the Muslim society in the Indian subcontinent. The term "Pasmanda" means "left behind" or "deprived". It represents those Muslims who have historically been socially, economically and educationally backward. Most Pasmanda Muslim rights activists have been questioning the functioning of Waqf Boards. It is not surprising that in their view, the Waqf Amendment Bill will bring transparency in the registration, verification and transactions of Waqf properties and poor Muslims will get freedom from Waqf disputes. Almost every institution of Muslims is occupied by the Ashraf class, that is, those who call themselves Muslims of foreign origin. They are unable to see that in the proposals of the amended Waqf Bill, important provisions have been made for women as well as backward Muslims of the Pasmanda class, which will open the way for the betterment of women and people of the Pasmanda class. For this reason, the major Pasmanda organization - All India Pasmanda Muslim Mahaz - has supported the Waqf Amendment Bill. It believes that the Waqf Board is occupied by Ashraf (leading and privileged) Muslims, who constitute about 15 percent of the total Muslim population. Ashraf Ulema and politicians are sitting like snakes on Waqf properties, while 85 percent Pasmanda (extremely backward and deprived) Muslims are being shown mirages for years. They are not getting any benefit from Waqf properties. The arguments of Maulana Arshad Madani and many people like him who are opposing the Waqf Amendment Bill are selfish. These people have never done anything in the interest of Pasmanda Muslims, on the contrary they have used them. The government is going to do something good by bringing the Waqf Amendment Bill, so such people and their supporters are busy running a campaign against the government. Most of the people associated with the Pasmanda movement believe that the decision being taken regarding the properties related to Waqf is in the interest of Pasmanda Muslims. It would be better if those who are opposing the Waqf Bill listen to what the Pasmanda Muslims are saying? The concept of Waqf was made with good intentions, but with time many evils have taken root in it. In the guise of Waqf, land mafias have emerged in many places, who have taken over graveyards and started taking advantage of every benefit provided by the government. The land mafias are selling Waqf land as their personal property and are building large shopping complexes by leasing them at nominal rates and charging huge rents. Since appropriate changes are being made in the Waqf Act to stop them, therefore, the Waqf amendment Act The extremely backward class of the Muslim society is seeing a ray of hope through the Money Bill.

There should be freedom from the ideology that creates hatred and religious discrimination

A filmy family in India named their son Taimur, which is a proof that the mentality of glorifying cruel invaders is still alive today. Taimur attacked India in the year 1398 only because he believed that the then Muslim rulers were not as cruel towards Hindus as they should be towards a 'kafir'. Healthcare workers are considered life savers and the embodiment of God, but recently an act of health workers in Australia tarnished this profession. The health workers associated with this case are proudly accepting the discrimination against patients of a particular class only due to religious reasons. They are also claiming to kill Jewish patients undergoing treatment in the fire of hatred. After all, what is this poisonous philosophy behind torturing humans in the name of religion? This incident is of Bankstown Hospital in Sydney, Australia. Two Muslim nurses (including a woman) working there were shown talking to an Israeli man in a two and a half minute video chat on February 11. In this, the male medical worker says, "I am extremely upset that you are from Israel, you have to die." In this, the health workers admit that they have sent many Jewish patients under treatment to 'hell'. That is, they have killed them. In the last one year, there has been a sudden increase in anti-Muslim, especially anti-Semitic sentiments in Australia. There have been many reports of vandalism in the homes, offices and business establishments of people associated with the community. In this, a school and two synagogues (Jewish places of worship) were even set on fire. Hatred against Jews is not limited to Australia only. Such cases have also increased in America and European countries for some time. Jews were targeted by Palestine supporters during a football match in Amsterdam, the capital of the Netherlands, on November 7. There has been a 245 percent increase in attacks on Jews in the Netherlands between the financial year 2022-23. During the same period, 550 anti-Semitic incidents were recorded in Britain. France and other European countries are also not untouched by this. The so-called rationalists link the recent anti-Semitic incidents to the deadly jihadist attack on Israel by the pro-Palestine terrorist organization Hamas in October 2023 and the Israeli military action on the Gaza Strip in response. On the contrary, the reality is that the Jews have been facing continuous persecution on religious grounds not due to any one recent incident, but since the rise of Christianity in the fourth century and then Islam in the eighth century. Religious oppression of Jews intensified in medieval Europe. In 1466, as per the instructions of the then Pope Paul II, Jews were stripped naked and publicly humiliated in Rome on Christmas Day. Later, Jewish priests (rabbis) started being paraded wearing jester's clothes. On December 25, 1881, 12 Jews were brutally murdered by a mob in Warsaw, Poland. Countless such incidents of persecution prove that anti-Jewish campaigns created an unsafe and violent environment for them in Europe for centuries, which was supported by the Church. This deep-rooted hatred took the form of the Holocaust, a widespread genocide of Jews under the leadership of Adolf Hitler between 1933-45. During this period, about 60 lakh Jews were killed, including 15 lakh children. While Jews have been facing oppression all over the world, Indians have also been victims of persecution on their own land. Religious persecution in India began in the eighth century with the invasion of Sindh by the Arab invader Muhammad bin Qasim. Under the influence of this mentality of Islamic invaders, rulers like Ghazni, Ghori, Khilji, Taimur, Tughlaq, Babar, Aurangzeb and Tipu Sultan tried to destroy the original Sanatan culture, values ??and traditions of India. The ideological successors of these invaders are still active in the Indian subcontinent with the same poisonous thinking. Due to this Jihadi mentality, a large part of India came under Islamic control, where Hindus, Sikhs, Buddhists and Jains are second class citizens according to the Sharia system. When North India was plagued by Islamic terrorism in the medieval period, then in the 16th century, Jesuit missionary Francis Xavier stepped into South India to propagate Christianity. Under the 'Goa Inquisition', he launched a violent religious campaign against not only Hindus, but also those Christians who were not following the beliefs and traditions of the Roman Catholic Church. Its horrors were depicted by the Constitution-maker Babasaheb Ambedkar in his writings. The irony is that this conversion continues even today in the name of secularism after independence, in which greed, fraud and fear are resorted to. It is worrying that people who call themselves civilized glorify those who spread hatred. The glorification of Aurangzeb is a recent example of this. Even dictators like Stalin-Lenin are not despised, on whose orders lakhs of innocent people were killed only due to ideological differences and disagreements. A filmy family in India named their son Taimur, which is proof that the mentality of glorifying cruel invaders is still alive. Taimur attacked India in the year 1398 only because he believed that the then Muslim rulers were so cruel towards Hindus. They were not as cruel as they should be to a 'kafir'. It is a bitter truth that hatred begets hatred. The cycle of violence inspired by it will not stop until we get rid of the mentality that rejects and despises everyone except itself.

महिला ने साथियों संग कंप्यूटर ऑपरेटर को बेहोश कर लूटा, बनाई अश्लील वीडियो

वीडियो वायरल करने के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके रिश्तेदारों से ट्रांसफर कराई रकम, एसपी सिटी के आदेश पर महिला व उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

मुरादाबाद- मझोला थाना क्षेत्र की महिला ने चंदौसी नगर पालिका के कंप्यूटर ऑपरेटर से दोस्ती कर उससे साढ़े पांच हजार रुपये ले लिए। बाद में पैसे वापस करने के बहाने मुरादाबाद बुलाकर नशीला पदार्थ देकर उसे साथियों के साथ बंधक बना लिया। अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर सोने की अंगूठी, पर्स लूट लिया और 77 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित की शिकायत पर मझोला थाना पुलिस ने एक नामजद महिला और उसके छह साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की है। जनपद संभल चंदौसी थाना क्षेत्र के शक्तिनगर निवासी अंकित कुमार सक्सेना चंदौसी नगर पालिका में कंप्यूटर ऑपरेटर है। अंकित ने एसपी सिटी को शिकायती पत्र देकर बताया कि दो साल पहले उसके पास मुस्कान मैसी नाम की महिला अपने पित के साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट बेंडर योजना के तहत 10 हजार रुपये का ऑनलाइन आवेदन कराने आई थी। इसके बाद वह किसी न किसी काम से नगर पालिका कार्यालय पर आती थी, जिससे उससे अच्छी पहचान हो गई और फोन पर बातचीत भी होने लगी। अंकित के अनुसार फरवरी 2025 में मुस्कान मैसी ने मोबाइल कॉल और वाट्सएप कॉल करके उसे ऑनलाइन स्कीम के बारे में बताया और कहा कि पैसा लगाने पर धनराशि दो से तीन दिन में दोगुनी हो जाएगी। पीड़ित के अनुसार विश्वास करके उसने 10 फरवरी 2025 को ढाई हजार रुपये बारकोड से किसी आशीष नाम के व्यक्ति के खाते में दिए। जिसके बाद 19 फरवरी 2025 को मुस्कान मैसी ने किसी अनिल सिंह का बारकोड भेज कर उसमें 3 हजार रुपये ट्रांसफर कराए। अंकित कुमार के अनुसार तीन दिन बाद 22 फरवरी 2025 को उसने अपने पैसे भेजने को कहा तो मुस्कान मैसी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। मुरादाबाद आकर पैसे ले जाओ। पीड़ित उसी दिन शाम छह बजे अपना काम खत्म करने के बाद वह महिला के बताए अनुसार मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में साईं अस्पताल के पास पहुंच गया। वहां लगभग आधे घंटे बाद मुस्कान मैसी एक दूसरी महिला के साथ आई और ऑफिस तक चलने की बात कहकर पैदल ही एक घर में ले गई। आरोप लगाया कि वहां मुस्कान मैसी ने उसे पीने के लिए पानी दिया, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ पहले से मिला था। पानी पीने के बाद वह बेसुध सा हो गया। तभी पांच युवक वहां और आ गए। सभी ने चाकू के बल पर उससे सोने की अंगूठी और पर्स लूट लिया, जिसमें 5 हजार रुपये थे। आरोप है कि चार युवकों ने चाकू के बल पर डरा धमका कर निर्वस्त्र कराया। बाद में मोबाइल से आरोपियों ने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली। बाद में वीडियो वायरल करने और रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की डिमांड शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने उसके मोबाइल से खाते में रखे 27 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। बाद में बहनोई, भाई और अन्य परिचितों से भी रकम ट्रांसफर करवाया। कुल 77 हजार रुपये आरोपियों ने लेने के बाद किसी तरह छोड़ा। पीड़ित के अनुसार अगले दिन आरोपी महिला मुस्कान मैसी ने वाट्सएप कॉल करके एक लाख रुपये की डिमांड की। धमकी दी कि रकम नहीं दी तो दुष्कर्म का मुकदमा लिखवा कर जेल भिजवा दूंगी। जिसके बाद पीड़ित ने परिवार वालों को आपबीती सुनाई और पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचा। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी ने एफआईआर के आदेश दिए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मझोला थाने में महिला मुस्कान मैसी और उसके छह साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच करने के साथ ही आरोपियों की तलाश कर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के दो सदस्य, 5000 में हुआ था पेपर का सौदा

मुरादाबाद- माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की पहली पाली में हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा देने पहुंचे सॉल्वर गैंग के दो सदस्य मूंढापांडे ब्लॉक के ऊंचा गांव पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर



कॉलेज में पकड़े गए। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडे ने दोनों आरोपियों को कटघर पुलिस के हवाले कर दिया है। पकड़े गए परीक्षा सॉल्वर में से एक 12वीं का छात्र तो दूसरा बीएससी का छात्र है। पकड़े जाने दोनों बाद आरोपियों ने बताया की उन्होंने 5000 रुपये प्रति पेपर का सौदा तय किया

था। मूंढापांडे ब्लॉक के गांव ऊंचा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में खूबचंद इंटर कॉलेज के दो छात्रों प्रदीप और कौशल के स्थान पर शुक्रवार को अंग्रेजी की परीक्षा देने सॉल्वर गैंग के दो सदस्य पहुंचे थे। खूबचंद इंटर कॉलेज पंडित नगला के छात्र प्रदीप कुमार के स्थान पर 12वीं का छात्र बीकूपाल परीक्षा देने पहुंचा। वहीं, खूबचंद इंटर कॉलेज के ही कौशल कुमार के स्थान पर बीएससी का छात्र समीर परीक्षा देने पहुंचा था। समीर ने कौशल के फोटो के स्थान पर अपनी फोटो लगा प्रवेश पत्र का इंतजाम किया था। वीकूपाल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के कक्ष निरीक्षक ने पहचान लिया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद भी बीकूपाल ने सारा मामला बताया । वहीं कक्ष में परीक्षा दे रहे समीर घटना को देखकर घबरा गया, जिस पर कक्षा शिक्षकों को समीर पर शक हुआ। इसके बाद समीर से भी पूछताछ की गई। केंद्र व्यवस्थापक मुनेंद्र सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडे को मामले की जानकारी दी। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक व सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र शर्मा टीम को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज पहुंचे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सॉल्वर गैंग के दोनों सदस्य को कटघर पुलिस के हवाले कर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कौशल के स्थान पर परीक्षा देने आए समीर के फर्जी प्रवेश पत्र को बनवाने में खूबचंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की भूमिका भी संदिग्ध पाई गईं हैं। खूब चंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक मुनिंदर सिंह की ओर से तहरीर दी गई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ 420 धारा में

होली में हुड़दंगियों पर प्रशासन की नजर, सिटी मजिस्ट्रेट रख रहीं व्यवस्था पर नजर, बोलीं- न बिगड़े माहौल

माहौल न बिगड़े इसके लिए पुलिस भी सतर्क, सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस टीम के साथ रख रहीं व्यवस्था पर नजर

मुरादाबाद- होली को लेकर एक तरफ जहां बाजार व घरों में उल्लास है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। वहीं होली में हुड़दंग न हो इस पर प्रशासन की भी नजर है। होलिका दहन स्थलों आदि की निगरानी

प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। शांति को सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारे के साथ सज गए हैं। रंग, गुलाल, पिचकारी आदि की जरूरी सामग्री की खरीदारी हो रही है। वहीं लेकर प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हैं। सिटी मनाने के लिए शांति समितियों की बैठकों में मनाने की अपील कर रही हैं। वहीं मनमानी रही है। शासन के द्वारा होली पर कोई नई लोगों से कहा है। होलिका दहन विवादित मजिस्ट्रेट का कहना है कि लोगों से अपील है उल्लास से मनाएं। कोई नई परंपरा नहीं शुरू कोई भी असामाजिक तत्व खलल डालने की की बढ़ी मांग, डिजाइनर पिचकारी बच्चों को लुभा रहीं है तो दूसरी ओर मुखौटे का भी



समितियों की विभिन्न कोतवाली व थानों में बैठक कर लोगों होली मनाने की अपील की जा रही है।होली के लिए बाजार दुकानों पर लोग खरीदारी करने में जुट गए हैं। मिठाई व अन्य होली की खुशियों में हुड़दंगियों के चलते खलल न पड़े इसको मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव होली को सौहार्दपूर्ण तरीके से पहुंचकर संभ्रांत नागरिकों से उल्लास व भाईचारे के साथ होली करने वाले हुड़दंगियों पर सख्ती के लिए भी नजर रखी जा परंपरा शुरू न करने देने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने भी स्थलों पर न हो इसकी भी मानीटरिंग की जा रही है। सिटी कि वह मिल जुलकर आपसी सौहार्द के साथ होली परंपरागत होगी। होली में हुड़दंग करने वालों पर सख्ती की जाएगी। कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मोदी के मुखौटे प्रिय- बाजार में एक तरफ डिजाइनर पिचकारियां बच्चों को ऋेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे की बाजार में खूब

मांग है। लोग इसे अधिक खरीद रहे हैं। बच्चों को डोरीमॉन, मोटू पतलू, छोटा भीम और अन्य कार्टून कैरेक्टर वाली पिचकारियां लुभा रही हैं। हालांकि इनके ऊंचे दाम सुनकर कई ग्राहक दुकान से पीछे हट जा रहे हैं। जबिक बच्चे कार्ट्न कैरेक्टर वाली पिचकारियां ही लेने की जिद कर रहे हैं। दुकानदार भी होली का रंग अपने कारोबार के माध्यम से चटख करने के लिए हर वेरायटी के उत्पाद रखकर ग्राहकों को दिखा रहे हैं। होलाष्ट्रक आज से, 14 को मनाई जाएंगी रंगों की होली- इस बार रंगों की होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। हालांकि कई जगह तिथियों को लेकर लोगों में भ्रम भी है। लेकिन ज्योतिषाचार्य का कहना है कि 13 मार्च को होलिका दहन के बाद 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। 7 मार्च से होलाष्ट्रक शुरू हो रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित केदार मुरारी ने बताया कि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल होलाष्ट्रक 7 मार्च को शुरु हो रहा है। 13 मार्च को होलिका दहन के दिन समाप्त होगा। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन इस समय पूजा-पाठ और दान करने का विशेष महत्व होता है। उन्होंने बताया कि पंचांग के अनुसार इस साल 13 मार्च को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। इसका समापन 14 मार्च को 12 बजकर 23 मिनट पर होगा। इस प्रकार होलिका दहन 13 को होगा और 14 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी।

मैच के दौरान मोहम्मद शमी के साफ्ट ड्रिंक्स पीने पर ट्रोल पर बचाव में आए कोच बदरुद्दीन, कहा-देश के लिए छोड़ा है रोजा

इसके बाद मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन इस्लाम की जानकारी नहीं हैं शमी देश के मोहम्मद शमी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के शरीर में एनर्जी बरकरार रखने के लिए सॉफ्ट इस्लाम से जुड़े लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर महीने में शमी ने जानबूझ कर रोजा नहीं रखा

रजवी ने कहा की रमजान के महीने में शमी

शहबुद्दीन रजवी ने कहा की रमजान के महीने गुनहगार हैं। वहीं उनके बचाव में आए क्रिकेटर छोड़ा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के की समझ ही नहीं है। शमी कोई लोकल मैच कहा गया है कि देश सर्वोपरि है। अगर आप




मुरादाबाद- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का मैदान में सॉफ्ट ड्रिंक पीने के फोटो सामने आने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहबुद्दीन ने जानबूझ कर रोजा नहीं रखा जो गुनाह हैं। शरीयत के हिसाब वह गुनहगार हैं। उनके बचाव में आ गए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देने वालों को लिए खेल रहे हैं इस बात पर इनको गर्व होना चाहिए। भारतीय तेज गेंदबाज मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए थे। इस बीच मैदान में ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक पी थी। एनर्जी ड्रिंक पीने का फोटो सोशल मीडिया पर दिया। सोशल मीडिया पर फोटो को ट्रोल करते हुए लिखा की रमजान के यह जो गुनाह हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष में शमी ने जानबूझ कर रोजा नहीं रखा जो गुनाह हैं शरीयत के हिसाब वह मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि शमी ने देश के लिए रोजा द्वारा मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है जो यह बोल रहे हैं उन्हें इस्लाम धर्म नहीं देश के लिए खेल रहे हैं। इस वक्त देश को उसकी जरूरत है और धर्म में

अभी रोजा नहीं रख रहे हैं तो इस्लाम में कहा गया है कि जो रोजे छूट गए उन्हें ईद के बाद रखा जा सकता है। उन्होंने शमी के ट्रोलर्स को कहा कि मुझे तो उनकी सोच पर शर्म आ रही है। जो बच्चा देश के लिए खेल रहा है उसके लिए ऐसी बातें निंदनीय है। ट्रोल करने वालों को उसकी मेहनत को सलाम करते हुए सपोर्ट करना चाहिए की वह मुस्लिम समाज का नाम इतना ऊंचा कर रहा हैं। कोच ने कहा कि फाइनल मैच में भारत का पड़ला भारी है।

संक्षिप्त समाचार

अवैध कब्जे हटाने को कहा तो हड़ताल पर गए आढ़ती मंडी समिति में पसरा सन्नाटा

मुरादाबाद- मुरादाबाद मंडी समिति में शुऋवार को फल और



सब्जी आढ़तियों ने अचानक हड़ताल कर दी। मंडी में सन्नाटा पसरा है। हड़ताल रमजान और होली के सीजन के दौरान प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति मानी जा रही है। आढ़ती प्रशासन पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि मंडी समिति की जिन सरकारी जमीनों पर उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन पर प्रशासन कोई कार्रवाई न करे। दरअसल, मंडी समिति की करोड़ों की सरकारी जमीनों पर पिछले कई वर्षों में आढ़तियों ने अवैध रूप से निर्माण करा लिए हैं। प्रशासन ने जब इन अवैध कब्जों की जांच की और नोटिस जारी किए, तब आढ़तियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माणों को हर हाल में हटाया जाएगा। इसी को लेकर आढ़ती अब हड़ताल पर

युवक ने बनाई युवती की अश्लील वीडियो, शादी से इनकार पर पिता-भाई को भेजी

युवती के पिता ने एसएसपी से की आरोपी युवक की शिकायत, एसएसपी ने नागफनी थाना पुलिस को दिए जांच कर कार्रवाई के आदेश

मुरादाबाद- नागफनी थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने रामपुर निवासी युवक पर उसकी बेटी की अश्लील वीडियो उसके व उसके बेटे के मोबाइल पर भेजने और बेटी की शादी कहीं और करने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। एसएसपी ने नागफनी थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। थाना नागफनी क्षेत्र के तहसील स्कूल निवासी व्यक्ति ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि कुछ दिन पहले जनपद रामपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाले युवक का उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया था। रिश्ता उचित न लगने पर पीड़ित ने शादी करने से इनकार कर दिया था। पीड़ित का आरोप है कि इसी बीच रिश्ता भेजने वाले युवक ने किसी तरह से उसकी बेटी का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और कॉल करके उसकी बेटी से संपर्क किया। इसके बाद दोनों के बीच बातें होने लगी और आरोपी युवक ने उसकी बेटी को प्रेम जाल में फांस लिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी युवक उसकी बेटी से कहता था कि अगर तुम मुझसे फोन पर बात नहीं करोगी तो मैं यह सब बातें तुम्हारे माता-पिता को बता दूंगा। इस दौरान आरोपी ने वीडियो कॉल करके उसकी बेटी की अश्लील वीडियो बना ली।बाद में धमकी दी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं यह वीडियो तुम्हारे परिवार, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर वायरल कर दुंगा। इस बात का पीड़ित की बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने बीती 5 मार्च 2025 की रात को वह अश्लील वीडियो पीड़ित और उसके पुत्र के मोबाइल पर भेज दी। पीड़ित का आरोप है कि युवक धमकी दे रहा है कि अगर उसकी शादी अपनी बेटी से नहीं की तो यह अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देगा। पीड़ित का कहना है कि उसकी बेटी 20 दिनों से टूरिस्ट वीजा पर देश से बाहर गई हुई है। इसीलिए पूरा परिवार काफी डरा हुआ है। अगर बेटी की शादी कहीं और की तो उसके पति को जान से मार देगा। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर एसएसपी ने नागफनी थाना पुलिस को मामले में जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी , मुद्रक , प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स , ए-11 , असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेत् पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

राजश्री कालेज में ''एम्पॉवरिंग जेन एल्फा एण्ड $\,$ भारत का पहला ${f AI}$ समर्थ विश्वविद्यालय बीटा ए0आई0 ड्रिवेन एजुकेशनल सिस्टमं 'पर इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस का हुआ शुभारम्भ

क्यूँ न लिखूँ सच

रिठौरा राजश्री इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टैक्नोलॉजी, में एम्पॉवरिंग जेन एल्फा एण्ड बीटा: ए० आई0 ड्रिवेन एजुकेशनल सिस्टमं' विषय पर दो दिवसीय इंटरनेशनल कान्फ्रेंस का हुआ शुभारम्भ

यूनिवर्सिटी ऑफ इलॉरिन, नाइजीरिया, ओश टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, किरगिस्तान, इस्लामिक नेगेरी यूनिवर्सिटी, इण्डोनेशिया के संयुक्त सहयोग से ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में आयोजित कान्फ्रेंस में देश-विदेश के शोधार्थियों एवं विषय



विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक एल्फा से बीटा जनरेशन में आये ट्रांजिशन का विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक व चिकित्सा क्षेत्रों पर प्रभाव पर चर्चा की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिव राकेश कुमार अग्रवाल एवं प्रबंध निदेशक रोहन बंसल ने दीप प्रज्वलन कर कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर प्रबन्ध निदेशक रोहन बंसल ने अपने सम्बोधन में आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस आधारित बीटा जनरेशन के प्रभावों, मानव जीवन को सुलभ बनाने में इनकी उपयोगिता और मशीनों से सम्भावित दुष्परिणामों से बचाव के उपायों से अवगत कराया। भारत के अतिरिक्त बाहर के देशों से आये लगभग 200 शोध पत्रों में सुदूरवर्ती प्रतिभागियों के लिये ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से शोधपत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया। कान्फ्रेंस के प्रथम दिवस पर प्रस्तुत किये गये शोध पत्रों में प्रो0 लथा पी0 द्वारा 'रोल ऑफ ए0 आई0 टूल्स इन हैल्थ केयर एण्ड नर्सिंग' ,श्रेया सिंह के द्वारा' यूज ऑफ ए0आई0 इन अन्डरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेन्ज विद स्पेशल रिफरेंस टु एल्गी' एवं 'डिजाइन एण्ड सीजिमक परफार्मेंस इन मल्टी स्टोरीज रेजीडेंसियल बिल्डिंग्स' विषय पर व्याख्यान सराहनीय रहे। सेशन चेयर की भूमिका में प्रो0 अनिल कुमार, प्रो0 छवि शर्मा, डॉ0 स्वतंत्र गुप्ता, डाॅं० गौरव कपूर, डाॅं० सुचेता द्वारा शोध पत्रों के फ्यूचर स्कोप पर चर्चा की गई। कान्फ्रेंस के द्वितीय दिवस पर शोध पत्रों के प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ समापन समारोह में सर्टिफिकेट प्रदान किये जायेगें।इस दौरान संस्थान के डीन प्रो0 साकेत अग्रवाल, निदेशक प्रो0 पंकज कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार दुष्यन्त माहेश्वरी, डॉ0 रवीश अग्रवाल, समन्वयक डॉ0 रूचिन जैन, अनुज वर्मा, डॉ0 सी0पी0 गंगवार, डॉ0 प्रियंका सिंह, डॉ0 अंकित अग्रवाल, वैशाली भारद्वाज, अनामिका गंगवार, मानसी सिंह आदि का सहयोग रहा। संचालन डॉ? नितिन विष्ट ने किया।

एस सा एसटा एसोसिएशन का हुआ गठन

बरेली-रिठौरा। शुक्रवार को एससी एसटी टीचर एसोसिएशन नवाबगंज इकाई का गठन किया



गया ।जिसमें सर्वसम्मति से शिक्षक प्रभेश आर्य को अध्यक्ष, विपिन कुमार को महामंत्री चुना गया। नगर पंचायत कार्यालय सभागार में शुक्रवार को एससी-एसटी टीचर एसोसिएशन ब्लॉक नवाबगंज की शाखा का गठन किया गया। जिला संरक्षक कुंवर सेन के निर्देशन में गठन किया गया।जिसमें प्रभेश आर्य को अध्यक्ष, विपिन कुमार महामंत्री महेंद्र वीर संरक्षक,जगदीश प्रसाद कोषाध्यक्ष, पान सिंह उपाध्यक्ष,

महिला उपाध्यक्ष ममता, ऑडिटर महेश चंद्र, संगठन मंत्री आरती कनौजिया को चुना गया सभी का फूल माला पहना कर स्वागत किया गया ।इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रभाकर बाबू, लालता प्रसाद, भारत विक्रम सिंह, हर स्वरूप गौतम, नवल किशोर,चंद्रसेन दिवाकर आदि मौजूद थे। नवनिर्वाचित टीम को चेयरमैन शकुंतला देवी, प्रतिनिधि अमित कुमार गुप्ता धनपाल सिंह आदि ने शुभकामनाएं

फूलों की खुशबू से महकी बरेली में रामायण वाटिका थ्रीडी चित्रों में रामकथा का वर्णन भी आकर्षन का केंद्र

क्यूँ न लिखूँ सच - सत्यम शर्मा

बरेली। बीडीए द्वारा लोगों के लिए रामायण वाटिका के रूप में एक नया रमणीक स्थल विकसित हो गया है। यहां चौतरफा रंग-बिरंगे फूलों की खुशबू है तो थ्रीडी चित्रों में रामकथा का वर्णन भी





आकर्षित कर रहा है। प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर रामकथा के वृतांत देखे जा सकते हैं। यहां पहुंचने वालों को भगवान श्रीराम के साथ ही भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप भी दिखेंगे। इसके अलावा जंगल का दृश्य भी दिखेगा और विभिन्न प्रजातियों की चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनने को मिलेगी। फूलों की महक के बीच प्रकृति का सुंदर नजारा भी यहां दिख जाएगा। रामायण वाटिका में गुलाब, गेंदा समेत तमाम स्थानीय प्रजातियों के फूलों के संग हॉलैंड के ट्यूलिप के फूल और दक्षिण भारत से लाए गए गोआब, वाकली, पाडल और मृत संजीवनी के पौधे भी अपनी महक बिखेर रहे हैं। बीडीए के अधिकारियों ने विगत दिवस यहां की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था। शुऋवार को जिले के विधायकों ने पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पहले दिन प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

बना फ्यूचर विश्वविद्यालय

क्यूँ न लिखूँ सच -सत्यम शर्मा

बरेली- फ्यूचर यूनिवर्सिटी, भारत के सबसे पहले प्रौद्योगिकी-आधारित और नवाचार केंद्रित विश्वविद्यालय के रूप में पहचान बन चुका है, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी उत्कृष्टता की नई मिसाल पेश कर रहा है। हाल ही में, विश्वविद्यालय ने ${f EduAI}$ सिमट 2025 का आयोजन किया – एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इवेंट, जिसने शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (\mathbf{AI}) की भूमिका को नए आयामों तक पहुंचाया। मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने कुलाधिपति मुकेश गुप्ता जी के साथ मिलकर इस समिट का उद्घाटन किया, जो फ्यूचर यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इस मौके दिग्गज जनप्रतिनिधि के रूप मे छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए श्री छत्रपाल सिंह , प्रो श्याम बिहारी, एम पी आर्य , डा डी सी वर्मा , श्री वीर विकर्म सिंह , श्रीमती, रश्मि पटेल , श्री जयपाल सिंह , कुंवर महाराज सिंह , सलोना रामसिंह कुशवाह आदि भी उपस्थित रहे । 6 मार्च 2025 को आयोजित इस समिट ने हू और उच्च शिक्षा के आपसी संबंध को नए सिरे से परिभाषित किया। समिट में प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और तकनीकी दिग्गजों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने मिलकर इस पर विचार-



विमर्श किया कि कैसे AI, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ला रहा है और छात्रों के अनुभवों को और अधिक व्यावसायिक तकनीकी रूप से समृद्ध बना रहा है। समिट के एजेंडे उपयोगी प्रेरणादायक भाषण, और संवाद थे, जिनमें विश्वविद्यालय के AIआधारित पाठ्यक्रमों की विशेषताएं प्रदर्शित की गईं। इसमें नवीनतम , हु

प्रयोगशालाओं, इंटरेक्टिव शिक्षण प्लेटफार्मीं और स्मार्ट कैंपस समाधानों का समावेश किया गया। समिट का मुख्य विषय यह था कि ${f AI}$ -संचालित शिक्षा , अनुसंधान और उद्योग-आधारित कार्यक्रम छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान, विश्वविद्यालय ने भविष्य के लिए अपनी रणनीतिक दिशा प्रस्तुत की। कुलाधिपति श्री मुकेश गुप्ता ने कहा, फ्यूचर यूनिवर्सिटी में, हम केवल शिक्षा नहीं, बल्कि भविष्य के नेतृत्व को आकार दे रहे हैं। हमारी शिक्षण प्रिक्रया में हु का समावेश शैक्षिक उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित कर रहा है और छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम भविष्य की दिशा में अग्रसर कर रहा है। प्रो-वाइस चांसलर प्रो. डॉ. पंकज मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह से अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। वहीं, समूह निदेशक प्रो. डॉ. हेमंत यादव ने इस बात को स्पष्ट किया कि वैश्विक उद्योग साझेदारी अकादिमक शिक्षा और वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। समिट का एक प्रमुख और प्रेरणादायक क्षण माननीय मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी का भाषण था, जिसमें उन्होंने ${f AI}$ -संचालित शिक्षा में फ्यूचर यूनिवर्सिटी की भूमिका को सराहा और भविष्य के कार्यबल के निर्माण में तकनीकी नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होने कहा जहां आज नए विकसित भारत की नींव रखी जा रही वहां न्यू एजुकेशन पालिसी के आधार पर फ्यूचर विश्वविद्यालय की इस पहल के द्वारा संस्कार , रोज़गार और तकनीक से जोड़ना युवाओ और देश की सफलता का पर्याय है। उन्होंने कहा विकसित भारत का ये विश्वविद्यालय बहुत आगे जायेगा जिसमे युवाओं का भविष्य सुरक्षित है मुख्या वक्ता के तौर पर आये IBM , Xebia और EC council से आये मनीष शर्मा , क्षितिज सिंह , हर्ष श्रीवास्तव ने फ्यूचर विश्व विद्यालय के साथ हुए अनुबंध से छात्रों को होने वाले फायदे और करियर के बारे मे जानकारी दी । EduAI सिमट 2025 ने यह साबित किया कि फ्यूचर यूनिवर्सिटी तकनीकी और व्यक्तिगत शिक्षण को एकीकृत करने में अग्रणी है। विश्वविद्यालय ने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया कि कैसे वह शोध और उद्योग साझेदारियों के माध्यम से छात्रों को डिजिटल युग में सफल और प्रभावशाली नेता बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस मौके पर बरैली चैम्बर , रोटरी, के सदस्य , प्रबुद्धजन, शिक्षाविद , फ्यूचर विश्वविद्यालय के शिक्षक आदि उपस्थित रहे ।

मडलायुक्त न विकास भवन में फोटो गैलरी का फीता

काटकर किया शुभारंभ

आज मंडलायुक्त श्री आन्जनेय कुमार सिंह द्वारा विकास भवन में फोटो गैलरी और विकास भवन में जीर्णोद्धार भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं ,उनको हम एक बेहतर लुक दें और वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं को बनाए रखें। सरकारी कार्यालयों को पब्लिक फेंडली बनाएं और जितना हो सके इनको सरकार के संदेश का एक जरिया बनाएं। उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित यादव के अच्छे इनिशिएटिव की वजह से विकास भवन को आई एस ओ सर्टिफिकेशन भी मिला है।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास भवन में ये एक नई पहल काफी अच्छी करी गई है जिसमें जनपद के कई सारे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आज अपने-अपने क्षेत्रों में काफी अच्छा काम कर रहे हैं ,आगे बढ़

रहे हैं चाहे वह पद्मश्री हमारे यहां

से दो लोग हों,प्रगतिशील

पब्लिक फेंडली बनाया जाए ♦ विकास भवन को मिला आई एस ओ सर्टिफिकेशन 🔷 जनपद में अपने अपने क्षेत्रों

🔷 सरकारी कार्यालयों को

में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों के बारे में विकास भवन में फोटो गैलरी स्थापित

किसान हों ,समूह हों अन्य अच्छा काम करने वाले लोग और उनके द्वारा किए गए संबंधित कार्यों की जानकारी को यहां फोटोग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल पब्लिक को सरकारी द्वाफ्तरों से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे ही कार्य अन्य ऑफिसों में भी

करवाए जाएं। सभी सरकारी ऑफिस को अपने आप को पब्लिक फेंडली बनाने पर जोर देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित यादव, जिला विकास अधिकारी श्री जीबी पाठक ,परियोजना निदेशक डीआरडीए सहित संबंधित विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं विकास भवन का स्टाफ

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए सम्पर्क करे- 9027776991

संक्षिप्त समाचार

अंग्रेजी की परीक्षा में 42 हुए अनुपस्थित, सख्ती के चलते छोड़ रहे परीक्षा

रिठौरा।नगर के दरबारी लाल शर्मा इण्टर कॉलेज में चल रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सुचिता बनाए रखने के लिए कालेज प्रशासन खासा सतर्कता बरत रहा है। जिसके चलते लगातार छात्र -छात्राएं परीक्षा छोड़ रहे हैं। शुऋवार को अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी। कुल पंजीकृत 606 बच्चों में 564 ने परीक्षा दी 42 अनुपस्थित रहे। वहीं इण्टरमीडिएट में कृषि वनस्पति विज्ञान में पंजीकृत 24 में 24 ने परीक्षा दी। कृषि अर्थशास्त्र ग्यारहवीं में पंजीकृत 28 में से 25 ने परीक्षा दी 3 अनुपस्थित रहे।इस दौरान स्ट्रेटिक मजिस्ट्रेट प्रीति केन्द्र व्यावस्थापक आशीष कुमार सिंह अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक वेदप्रकाश परीक्षा प्रमुख डाक्टर हरमीत सिंह, कुसुम गंगवार, रघुवीर सरन, लोकेश कुमार, अमरेश कुमार, राजपाल ,डॉ सर्वेश कुमार, डॉ राजेश कुमार गंगवार, वरूण वर्मा, ब्रजेश शर्मा कम्प्यूटर आपरेटर अनुपम शर्मा,एस आई तुलसीदास कान्स्टेबल अनुराग सचिन सहित तमाम स्टाफ मौजूद

होली पर रहेगी कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से की जाएगी छतों की निगरानी, बवाल किया तो खैर नहीं, एसएसपी

क्यूँ न लिखूँ सच -सत्यम शर्मा

बरेली- होलिका दहन और रंगोत्सव के मौके पर बरेली जिले में सुरक्षा बंदोबस्त दुरुस्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

एसएसपी ने राजपत्रित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में 80 होली जुलूस निकालने के दौरान जिम्मेदारी तय की है। हर थाना क्षेत्र में एक ड्रोन ऑपरेटर को पुलिस के



साथ संबद्ध किया है। जिले में ड्रोन की मदद से छतों के पत्थर व भीड़ को देखा जाएगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जिले में कुल 2900 स्थानों पर होलिका दहन होगा। जबकि 80 जुलूस के लिए बॉक्स फार्मेशन में ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। साथ ही छतों पर भी ड्यूटी लगाई जा रही हैं। पुलिसकर्मी छतों व गलियों की स्थिति देखने को ड्रोन की भी मदद लेंगे। एसएसपी ने बताया कि क्षेत्र में 75 इंस्पेक्टर, 500 दरोगा, 500 मुख्य आरक्षी, 1100 आरक्षी व महिला आरक्षी की होली पर लगातार तैनाती रहेगी। थानों पर पीस कमेटी के सदस्यों को भी जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी ने बताया कि किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो तत्काल गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा।

नामिका अधिवक्ता (राजस्व) तहसील ठाकुरद्वारा के पद पर आवेदन आमंत्रित

क्यूँ न लिखूँ सच

अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री गुलाब चन्द्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 एवं उ०प्र0 राजस्व नियमावली 2016 के नियम 72-(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत के चयन के माध्यम से नामिका अधिवक्ता (राजस्व) तहसील ठाकुरद्वारा के पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु आवेदन पत्र जिला बार एवं लाइबेरी मुरादाबाद/जिला/तहसील बार के अध्यक्ष की टिप्पणी के साथ दिनांक 05.03.2025 की सायं 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से जिला भूमि व्यवस्था सहायक पटल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी परन्तु आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश दिनांक 05.03.2025 के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाने हेतु दिनांक 05 अप्रैल 2025 तक अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। नामिका अधिवक्ता (राजस्व) तहसील ठाकुरद्वारा के पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु जनपद मुरादाबाद के बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि साफ सुथरे ए-4 साईज के पेपर पर सही प्रकार अंकित आवेदन पत्र जिला बार एवं लाईब्रेरी मुरादाबाद/जिला/तहसील बार के अध्यक्ष की टिप्पणी के साथ दिनांक 05 अप्रैल 2025 की सायं 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से जिला भूमि व्यवस्था सहायक पटल पर उपलब्ध कराना वांछनीय है।

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए

> 9027776991 knlslive@gmail.com

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योगी सरकार व न्यायपालिका के आदेशों का क्यों नहीं योजना कार्यक्रम सम्पन्न

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत शुक्रवार को दातागंज रोड स्थित एच0पी0 इंस्टीट्यूट के ग्राउंड एवं विकासखंड मुख्यालय समरेर तथा विकासखंड मुख्यालय उसावा में मुख्यमंत्री सामूहिक

विवाह का आयोजन किया गया। जनपद बदायूं में कुल 162 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया जिसमें 12 मुस्लिम एवं 31 बौद्ध जोड़े सम्मिलित हुए। जनपद बदायूं स्थित कार्यक्रम में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा समरेर ब्लॉक मुख्यालय पर 33 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 32 हिंदू और 01 मुस्लिम जोड़ा



सम्मिलित हुए। विकासखंड मुख्यालय उसावां में 32 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया जिसमें सभी हिंदू जोड़े सिम्मिलित हुए। जनपद बदायूं में सदर विधायक एवं उनकी सिमिति हरि बोल द्वारा समस्त जोड़ों को हेलमेट उपहार स्वरूप भेंट किया गया। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें प्रत्येक जोड़े पर सरकार द्वारा 51 हजार रुपए की धनराशि व्यय की जाती है। योजना में पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ जोड़ों का चयन किया जाता है इसके साथ-साथ जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित जोड़ों को शुभकामनाएं व्यक्त की गई। मुख्य अतिथि सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि सास बहू मिलजुल कर रहे, यदि बहू से कोई गलती हो जाती है तो सासु मां उसे क्षमा करें। गृहस्थी को पूरे मनोयोग से संचालित करें। हेलमेट भेंट करते हुए कहा यह आपको मैं जीवन रक्षा कवच भेंट कर रहा हूं। इसके लिए आप सभी लोग प्रयोग करें और दुर्घटनाओं से बचें। दातागंज विधायक राजीव सिंह ने कहा कि गृहस्थी दो गाड़ी के पहिए है और इनमें संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि गृहस्थी का संचालन समझदारी एवं संतुलन के साथ करें। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष शारदेंदु पाठक, जिला उपाध्यक्ष, दुर्गेश वाष्णेय जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद पटेल पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री सुधीर श्रीवास्तव युवा भाजपा नेता विश्वजीत गुप्ता मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार नगर मजिस्ट्रेट सुरेश पाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा मौजूद रहे। विकासखंड मुख्यालय समरेर में दातागंज विधायक राजीव सिंह ब्लॉक प्रमुख दातागंज अतेंद्र विक्रम ब्लॉक प्रमुख समरेर उपस्थित रहे। विकासखंड मुख्यालय उसावा में ब्लॉक प्रमुख उसावा, दातागंज विधायक राजीव सिंह उपस्थित रहे। मंच संचालन महाराज सिंह समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया।

गाँव में गर्ल्स स्कूल दसवीं तक था, ललिता ने बॉयज स्कूल में एडिमशन लिया और नर्सिंग ऑफिसर बनकर कर रहीं सेवा

क्यूँ न लिखूँ सच

गांव में दसवीं क्लास से ज्यादा किसी लड़की ने पढाई नहीं की थी क्योंकि गर्ल्स स्कूल इससे आगे

नहीं था ऐसे विपरीत और अपने मम्मी पापा एडिमशन लेकर साहस पीछे वालों की राह उनके गांव की लड़िकयां फील्ड में नौकरियां कर मानव सेवा कर रही हैं अपने व अपने परिवार के मे लॉक डाउन के दौरान मास्क , फुटपाथ पर रहने लिए दाने, पानी, चारे



हालतों में ललिता टॉक ने हिम्मत दिखाई एवं भाईयों के कहने पर ब्वॉयज स्कूल मे का परिचय दिया और बारहवीं पास कर अपने खोली और एक आइंडियल साबित हुई।आज शिक्षा के क्षेत्र मे आगे आकर अलग अलग रही हैं। ललिता यहीं नहीं रुकी नर्सिंग करके और कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं जीवन की परवाह किए बिना। कोरोना काल स्वयं के द्वारा खाना, राशन,सेनिटाइजर, कैप, वालों को वितरण करना, पशु, पक्षियों के की व्यवस्था की गई। इतने में भी नहीं रुकी

समाज सेवा एवं हृतह से जुड़कर अपनी सेवाएं देने लगी। नर्सिंग सेवा के साथ साथ ट्वहश और समाज सेवा के द्वारा गरीब, लाचार, असहाय लोगों की मदद करना, सामूहिक विवाह सम्मेलनों मे शामिल होना और सहयोग करना। ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, मोतियाबिंद के कैंप लगवाना, नि:शुल्क चश्मों का वितरण करना आदि कार्यों मे सहयोग करना। कोरोना काल में हृत्रह के माध्यम से निशुल्क राशन वितरण, खाना बनाकर बांटना, पशु पक्षियों को चारे पानी, दाने की व्यवस्था करना, निःशुल्क सिलाई मशीनों का वितरण करना आदि। अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए डिपार्टमेंट एवं मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य भवन और अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवॉर्ड से, 5 बार राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका हैं। समर्पण संस्था द्वारा डॉ विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव सम्मान 2024 मे, अन्य हृतह्र, समाज द्वारा, अन्य संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका हैं। समाज रत्न सम्मान से, कबीर कोहिनूर सम्मान से, कीर्ति सम्मान से, नारी शिरोमणि सम्मान, नारी गौरव सम्मान से, आयरन लेडी, महारानी लक्ष्मी बाई, सावित्रीबाई फुले अवार्ड से इंडियन इंस्पायरिंग अवार्ड से न्यूज चैनल द्वारा , भारत गौरव सम्मान से भारत मानव सेवा से बड़े-बड़े अवार्डी सम्मानित किया जा चुका है। ये ही नहीं नेशनल पार्लियामेंट ऑफ़ भारत डिजिटल हरित क्रांति इन दिल्ली उदयपुर से जोड़कर पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपने कार्यों के लिए ललिता टांक ब्रांड एंबेसडर और राष्ट्रीय ब्रांड एंबेसडर से सम्मानित हो चुकी है और अपने कार्यों के लिए राष्ट्रीय बुक भारत की ऊर्जावान किशोरी शक्ति नामक बुक में लिलता टॉक को स्थान दिया गया और उनके व उनके कार्यों के बारे में और उनकी सेवाओं के बारे में लिखा गया है। चाकसू की बेटी ने समाज सेवा मे दी मिसाल नामक लेख में लिखा गया है साहित्य के क्षेत्र में भी सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा रचित कविताये भी छप चुकी है सर्जन की अग्रणी महिलाएं नामक बुक मे एवं पत्रिकाओं मे हिंदी काव्य रत्न सम्मान से, हिंदी आइडियल सम्मान से आदि से सम्मानित किया जा चुका हैं।

हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र विनिक क्यूँ न विख् सच

को आवख्यकता है उत्तर प्रदेश . उत्तराखंड मध्य प्रदेश ,दिल्की ,बिह्यर पंजाब छ्तीसगढ़ राजस्थान आदि सभी राज्यों से स्थिविस्जिन ब्यूसे विज्ञापन प्रतिनिधि की

सप्पर्क करे १०२७७७ व

कराया जा रहा अनुपालन

श्रावस्ती के विकासखंड हरिहरपुर रानी के ग्राम पंचायत भंगही में होलिका दहन से मिले हुए रास्ते को

ना राजस्व प्रशासन भिनग न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर रहा है और ना ही दबंग के कब्जे से रास्ते को मुक्त करने का काम किया जा रहा है आखिर किस कारण से ग्रामीणों का रास्ता अवरुद्ध होने के बावजूद भी राजस्व प्रशासन भिनगा न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने में विलंब कर रहा है और उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया के शासनादेशों की धज्जियां उड़ा रहा है आखिर कब योगी का



राजस्व प्रशासन ग्राम पंचायत भंगही के भू राजस्व अभिलेख में दर्ज गाटा संख्या 544 रास्ता दर्ज है लेकिन भू माफिया प्रधान लक्ष्मी शरण का पुत्र इंद्र बहादुर उस पर अपना अवैध मकान बनाकर संबंधित अधिकारियों से मिली भगत करके न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं होने दे रहा है न्यायालय पर चल रहे बाद में हल्का लेखपाल ने दो बार अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है की गाटा संख्या 544 पर इंद्र बहादुर का अवैध कब्ज़ा किये हुऐ है देखना है की राजस्व प्रशासन भिनगा उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश को ध्यान में रखते हुए वह न्यायपालिका के आदेशों का अनुपालन करने में अपनी क्या भूमिका निभाती है या भू माफिया का वर्चस्व ऐसे ही बना रहेगा योगी सरकार में

खाइवालव सटारिया के लिए पारा बना स्वर्ग

क्यूँ न लिखूँ सच -शैलेन्द्र राठौर

झाबुआ∕पारा - गत कई माह से जिले सहित आसपास के खाईवाल सटोरियों के लिए पारा स्वर्ग बना हुआ़ जहां पुलिस कार्यवाही का कोई भय नहीं है ़ सटोरियों का अवैध कारोबार पारा में निर्बाध रूप से चल रहा है और खूब फलफूल रहा है जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा मासिक ऋाईम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई बार अवैध रूप से सट्टा चला रहे कारोबारियो पर कार्यवाही पर निर्देश दिए जा चुके है जिसके परिणाम स्वरूप जिले भर से लगातार सटोरियों पर कार्यवाही के समाचार प्राप्त हो रहे है किन्तु पारा में अभी तक कोई कार्यवाही सटोरियों पर नहीं होने से सटोरियों में कोई भय नहीं है आपसी सदभावना के चलते सटोरियों को अभयदान मिला हुआ है तभी जिले के कई जगह से खदेड़े गए सटोरिये खाईवाल सहित नगर के सटोरिये खाईवाल क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ मिल कर नगर में निर्बाध रूप से सट्टा कारोबार का संचालन कर रहे है पारा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे सट्टा कारोबार चारो तरफ बोरी रोड नवापाडा बखतपुरा में नदी नालो खेत खिलहानो व तालाब पर निर्बाध रूप से संचालित हो रहा है जिसमे ग्रामीण अंचल के कई लोग अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई हजारो रुपयो का दांव रोजना लगा रहै है जिसमे भंवरा तितली जैसे खेल भी शामिल है द्य इन सट्टा कारोबारियो में से एक पर ज़िला बदर की कार्यवाही भी पूर्व चाका प्रभारा द्वारा का जा चुका है।कन्तु रसूख के कारण उक्त कायवाहा ठंड बस्त में पड़ा हुई है इन सटोरियों के दूरभाषिये हर तरफ गली मोहल्ले में बैठे पुलिस की आवाजाही होते देख तुरंत सट्टा कारोबारी को सुचना देते है जिससे वह तत्काल अपना कारोबार समेट लेते है व सब कुछ समान्य दिखने लगता है पुलिस प्रशासन को चाहिए की सादी वर्दी में अपने जवान भेज कर अवैध सट्टा कारोबारियों पर अंकुश लगाए जिससे ग्रामीण अनपढ़ जनता गुजरात से कमाई कर लौटने पर इनके चंगुल से बचे ओर बर्बाद होने से बचे

श्रानगर (जम्मू एवं कश्मीर) में लोकसंवर्धन पर्व का आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच लोकसंवर्धन पर्व में प्रतिभाग करने हेतु जनपद मुरादाबाद के कारीगरों ⁄शिल्पकारों तथा पाक विशेषज्ञ 12 मार्च तक करें आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री दिलीप कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा दिनांक 06.04.2025 से 14.04.2025 तक श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में प्रदर्शनी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से तीसरे

लोकसंवर्धन पर्व का आयोजन होगा, जिसमें सम्पूर्ण भारत से कारीगरों/ शिल्पकारों और पाक विशेषज्ञों को अपने प्रदर्शन/व्यंजन के लिये आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन में देश-विदेश के कलाप्रेमी, पर्यटक तथा कई हस्तियाँ बड़ी उपस्थित रहेंगी

जिसके चलते यह

विशेषज्ञों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन करने का एक सुनहरा अवसर है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा आयोजित किये जा रहे लोकसंवर्धन पर्व में प्रतिभाग करने के इच्छुक जनपद मुरादाबाद के कारीगरों/ शिल्पकारों तथा पाक विशेषज्ञों https://

के आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन हेतु विस्तृत आवेदन पत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में निगम की वेबसाइट www.nmdfc.org/lspx पर उपलब्ध हैं। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अथवा कारीगर कार्ड (यदि हो तो), बैंक पासबुक, सम्बन्धित शिल्प / व्यंजन का नाम, प्रचलित शिल्प/व्यंजन से वार्षिक आय तथा शिल्प/ व्यंजन बनाने का पूर्व अनुभव आदि का विवरण अनिवार्य है। प्रदर्शनी में भाग लेने के इच्छुक कारीगर/शिल्पकार और पाक विशेषज्ञ विस्तृत आवेदन पत्र भर

कारीगरों, शिल्पकारों तथा पाक अल्पसंख्यक अधिकारी कार्यालय मुरादाबाद में दिनांक 12 मार्च 2025 तक जमा कर सकते हैं। प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने हेत् चयनित कारीगरों/शिल्पकारों तथा पाक विशोषज्ञों को यथासमय निगम द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

तस्कर 10 कच्ची शराब सहित तस्कर गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली झिंझाना। गत रात्रि पुलिस अधीक्षक शामली रामसेवक



आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में ल प्र अपराधियों की गिरफ्तारी, अभियान के ऋम में अपर

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त लक्खा सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी डेरा बखशीश मजरा ग्राम अजीजपुर को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

30 वाहना का चालान

क्यूँ न लिखूँ सच -वीरेंद्र कुमार वर्मा

श्रावस्ती - पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर बैरियर⁄चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग गयी, वाहनों की चेकिंग की दौरान 82 वाहनों का मोटर वाहन अधिनियम से ई-चालान कर रू० 39000 का शमन किया गया!

आज होगा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी ने जानकारी देते बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ०प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के ऋम में मा० जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप 08 मार्च 2025 को समय पूर्वान्ह 10:00 बजे से जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मा0 जनपद न्यायाधीश∕अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, मनोज कुमार-तृतीय की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायू शिव कुमारी ने बताया कि दिनांक 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर लाभ पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर ववाद का निस्तारण, पक्षकार व्याक्तगत स्तर पर स्वय पहल कर सकता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, सिविल प्रकृति के लंबित मामलों के लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर निस्तारित वाद पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था, लोक अदालत में निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं, कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज एवं सुलभ और आपसी समझौते पर आधारित होती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, अपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, धारा 138 पराऋम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुघर्टना प्रतिकर याचिकाएँ, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत, जल कर एवं दूरसंचार बिल के विवाद, एन0आई0एक्ट, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि सहित ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटीगेशन) स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है।

उन्होंने इस सन्दर्भ में जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगणों से अनुरोध किया है कि ये अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों⁄विवादों को निस्तारित करवाकर दिनांक 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

अवधेश शर्मा बने भाजपा जिला प्रतिनिधि समर्थकों ने किया स्वागत

क्यूँ न लिखूँ सच -लवकुश ठाकुर

अलीगढ़ अकराबाद- भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में शुऋवार को कस्बा अकराबाद



निवासी अवधेश शर्मा को जिला प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया है। श्री शर्मा के जिला प्रतिनिधि



बनने पर कस्बा में उनके समर्थकों ने फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित जिला प्रतिनिधि ने कहा है पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उसे पूरी कर्मठता से निभायेगें। इस अवसर पर क्षेत्रीय सहकारी समिति अकराबाद के अध्यक्ष नीरज शर्मा, डा.विवेक उपाध्याय, संजय शर्मा, खेंद्र कुमार सौनी,विशाल शर्मा, प्रशांत कुमार, मनोज कोहली, जयदीप सिंह, मोनूसिंह, विपिन कुमार,रोहिताश सिंह,योगेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे

सार्वजनिक उद्यम एवं जिला स्तरीय समिति के समक्ष वर्ष 2025 26 हेतु लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली जिला आबकारी अधिकारी शामली ने अवगत कराया कि कलेक्ट्रेट सभागार शामली में



आज नोडल अधिकारी श्री संजय कुमार, महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम, एवं जिला स्तरीय समिति के समक्ष वर्ष 2025-26 हेतु ई-लाटरी प्रकिया सम्पन्न हुई। जिसमें देशी शराब की कुल 81 दुकानों पर 870 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 867 आवेदन अर्ह पाये गये तथा 03 आवेदन अनर्ह पाये गये, उन्हें ई-लाटरी प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया गया। कम्पोजिट

शॉप्स की कुल 56 दुकानों के लिए 492 आवेदन प्राप्त हुए, सभी अर्ह पाये गये। मॉडल शॉप्स की कुल 06 दुकानों के लिए 60 आवेदन प्राप्त हुए. सभी अई पाये गये इसी प्रकार भांग की कुल 09 दुकानों के लिए 139 आवेदन प्राप्त हुए, सभी अर्ह पाये गये। देशी शराब, कम्पोजिट शॉप्स, मॉडल शॉप्स व भांग की कुल 152 फुटकर दुकानों के लिए कुल 1561 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 03 आवेदन निरस्त किये गये। जनपद शामली की प्रथम चरण की ई-लाटरी में समस्त 152 दुकानें व्यवस्थित हो गयी है. इस प्रकार जनपद में आबकारी की कोई भी दुकान व्यवस्थापन हेतु अवशेष नहीं है। अन्त में कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित आवेदकों को नोडल अधिकारी एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

बगदरा चौकी में शांति समिति के बैठक का हुआ आयोजन त्यौहार के मद्देनजर लोगों दी गई समझाइश

क्यूँ न लिखूँ सच -मानस मिश्रा

सिंगरौली चितरंगी अंतर्गत आज दिनांक 06 मार्च 2025 को समय 4 बजे बगदरा चौकी में शांति

समिति की बैठक हुई जिसमें आगामी त्योहारों के बारे में शांति पूर्ण तरीके से त्योहार मनाने व डीजे साउंड बिना अनुमित के ना चलाने हेतु प्रभारी वीपी कोल द्वारा समझाइस दी गई। और क्षेत्रवासियों से अपील कि गई कि आगामी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए लोग पुलिस का सहयोग प्रदान करे और किसी भी प्रकार



कि घटनाओं से बचे होली के त्यौहार पर और किसी भी प्रकार कि घटना पर क्षेत्रवासि तत्काल पुलिस से संपर्क करें और पुलिस का सहयोग करें शांति समिति कि बैठक में उपनिरीक्षक वीपी कोल और सऊनि. मार्तंड सिंह चौहान, सऊनि. परमहंस पांडे आरक्षक गौरव यादव, आरक्षक तरवर सिंह, और क्षेत्रवासी गण उपस्थित रहे।

एकल अभियान के द्वारा किया गया संध्या भजन कार्यक्रम का आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती। एकल अभियान के भजन संध्या का आयोजन हुआ, कथा वाचक खुशबू और विद्या स्वेता ने भजनों से श्रोता को किया मंत्रमुग्ध हजारों भक्तों ने भजन संध्या में भाग लिया और नाचते-गाते दिखे, श्रावस्ती में भगति के प्रति बढ़ती श्रद्धा को देखते हुए एक भव्य भजन संध्या का आयोजन



किया गया, जिसे हजारों श्याम भक्तों ने अपनी उपस्थिति से भव्य बनाया. यह आयोजन सिरसिया के बरगदवा गांव में स्थिति दुर्गा माता मंदिर में आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में बाहर से आए प्रसिद्ध कथा वाचक खुशबू, विद्या, वंदना, अंबिका, स्वेता, तथा इनका म्यूजिक में साथ दे

रहे जय नारायन, सोनू, कमलजीत, अमित कुमार श्रीवास्तव ने बाबा श्याम तथा भगवान राम के भजनों से भक्तों का दिल छू लिया. इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता कर रहे एकल अभियान के संच अध्यक्ष अजय कान्त पटेल का कहना है कि यह उत्सव राम भक्तों व श्याम भक्तों को भक्ति के रंग में रंगने और खाटू श्याम से जुड़ने का अनमोल अवसर प्रदान किया यह आयोजन एकल अभियान हरिकथा योजना भजन टोली द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि इस क्षेत्र का तीसरा कार्यक्रम था माननीय पटेल जी के द्वारा बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय उद्योपुरवा तथा दुर्गा मंदिर सिरसिया में भी दो दिन पूर्व यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था। यह आयोजन केवल एक भजन संध्या नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गया. कथा वाचक के गायन ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया और इस आयोजन को यादगार बना दिया. बरगदवा में यह तीसरा कार्यक्रम है हर कार्यक्रम की भांति आने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो उनके प्रति भक्तों की गहरी श्रद्धा को दर्शाता है. इस आयोजन में हजारों की संख्या में राम व श्याम के भक्तों ने भाग लिया और उत्साह से भरे हुए नारे लगाए. 'जय सियाराम' के उद्घोष के साथ पूरा पंडाल गूंजा। मीठे-मीठे भजनों पर झूमते नाचते हुए नजर आए, यह विशाल भजन संध्या देर रात तक चली. इस भजन संध्या में श्याम के भजनों पर भक्त नाचते-गाते और झूमते हुए दिखे. खाटू श्याम जी की तर्ज पर भव्य श्याम फागोत्सव मनाया मनाया गया. मंदिर अध्यक्ष केशव राम वर्मा ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होना चाहिए जिससे भक्तों और भगति का मिलन हो सके वही पर भक्तों के साथ फूलों की होली खेली गई. इस दौरान मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया. वहीं भक्त भी मीठे-मीठे भजनों पर झूमते नाचते हुए नजर आए. इस दौरान अरमान वर्मा, डॉ आर के मौर्य, पंकज यादव, पंकज पाठक, आदित्य संदीप द्विवेदी, जीवलाल शुक्ल, कामेश्वर नाथ वर्मा, डॉ पवन कुमार भार्गव, जय प्रकाश यादव, पंकज मौर्य, परमानंद मौर्य, रमानन्द मौर्य, पीताम्बर मौर्य, कपिल वर्मा,जग नारायन यादव, दया नन्द शर्मा, दीपक कुमार दूबे, राजेश कुमार संच प्रमुख, भक्लर प्रसाद संच प्रमुख, आशुतोष कुमार, राम जी, सुग्रीव सहित हजारों लोग रहे उपस्थित।

जनपद में प्रथम बार 'शामली महोत्सव 2025' के आयोजन की घोषणा-कृषि, कला, संस्कृति और विविधता का उत्सव

क्यूँ न लिखूँ सच -राकेश गुप्ता

शामली जिलाधिकारी शामली श्री अरविन्द कुमार चौहान ने बताया कि कृषि प्रधान जनपद में पहली बार यह भव्य शामली महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो कला, संस्कृति और विविधता का उत्सव होगा जिसकी सभी तैयारियां हो गई है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई

है। यह चार दिवसीय महोत्सव 07 मार्च से 10 मार्च 2025 तक वी.वी. पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, शामली में आयोजित होगा। इस महोत्सव में प्रसिद्ध कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों साथ-साथ स्थानीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके



खजाना में शामली और अन्य स्थानों के स्वादिष्ठ व्यंजन उपलब्ध होंगे, जबकि शॉपिंग स्टॉल्स पर विविध प्रकार की वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी इसके साथ ही बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी रहेगी। इस प्रकार है शामली महोत्सव की रूपरेखा दिनांक 07 मार्च को प्रात: 6=00 से 6=30

अतिथि सभा, 6=30 से 7=00 तक अतिथियों का स्वागत, 7=00 से 9=30 बजे तक शामली , *9*=30 से 10=00 तक जलपान, शामली स्वास्थ्य मार्च-एक अनूठी प्लॉगिंग पहल महोत्सव की शुरुआत शामली स्वास्थ्य मार्च से होगी, जिसमें प्लॉगथॉन (दौड़ते हुए कचरा उठाने की गतिविधि) का आयोजन किया जाएगा।



यह प्लॉगथॉन वी.वी.पी.जी. कॉलेज के प्रांगण से आरंभ होकर एक निर्धारित मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। सायं 05-00 बजे से 05-45 बजे तक शामली महोत्सव का उद्घाटन, 05-45 से 06-00 बजे तक विद्यालय के छात्रों द्वारा गणेश वंदना, 06-00 से 07-00 बजे तक कलाकार सचिन नामदेव द्वारा प्रदर्शन, 07-00 बजे से 07-45, निरित्याजिल फाउंडेशन, 07-45 से 08-45 अतुल पंडित द्वारा प्रदर्शन (बॉलीवुड गायक), 08=45 से 09=30 बजे तक, प्रांजल दहिया द्वारा प्रदर्शन (हरियाणवी कलाकार) इसके अलावा दिनांक 08 मार्च 2025 को दोपहर 12700 बजे से दोपहर 03700 बजे तक, स्कूली बच्चों द्वारा कार्यक्रम, सायं के समय 05-30 से 06-15 बजे तक विशाल कैराना द्वारा प्रदर्शन, 06=15 से 07=00 बजे तक जादूगर राकेश श्रीवास्तव द्वारा प्रदर्शन, 7=00 से 7=30 तक लेजर शो, 7=30 से 8=30 तक रुचिका जांगिड़ द्वारा प्रदर्शन, 8=30 से 10=00 तक नितिन कुमार द्वारा प्रदर्शन (इंडियन आइडल गायक) इसके अलावा दिनांक 09 मार्च,12700 बजे से 03700 बजे तक, स्कूली बच्चों द्वारा कार्यक्रम, शाम 05~30 से 06~00 बजे तक गोविंद कौशिक द्वारा प्रदर्शन, 6=00 से 7=00 तक डॉ हरि ओम द्वारा प्रदर्शन 7=00 से 08=00 बजे तक कलाकार सुचिता पाण्डेय द्वारा प्रदर्शन 8-00 से 9-30 बजे तक मोनाली ठाकुर का ग्राण्ड फिनाले (बॉलीवुड गायिका। इसके अलावा दिनांक 10 मार्च 2025 अंतिम दिन 12-00 से 2-00 तक स्कूल प्रदर्शन का समापन एवं सम्मान व २२०० से ३२०० तक सम्मान एवं शुभकामना। सायं ५२३० से ६२४५ ब्रह्मपाल नगर(रागिनी), 06-45 से 07-45 तक गीतांजिल ग्रुप (ब्रिज की होली), 07-45 से 08-15 तक छोटू आर्ट ग्रुप का प्रदर्शन,08=15 से 09=30 कवि सम्मेलन का आयोजन होगा।

सीमा सड़क सरेखण के लिए SSB और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती - भारत-नेपाल सीमा पर आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और सीमा सड़क संरेखण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से अमरेन्द्र कुमार वरुण कमांडेंट 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल

(स्स्क्क) भिनगा एवं गंगा सिंह उदावत कमान्डेंट 42वीं वाहिनी स्स्क्रबहराइच की अगुवाई में एसएसबी की सर्वे टीम से निरीक्षक/ अभियांत्रिकीअनिल थपालियाल व अन्य और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी श्री मनीष कुमार यादव अधिशासी अभियंता, शौर्य सिंह सहायक अभियंता और शम्मी अली कनिष्ठ अभियंता की टीम के साथ ककरदरी वनक्षेत्र में



संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण हृश्र रूड्डुट्ट'ह्य रूड्डुट्टस्त्र के समीप सीमा सड़क के सही सरेखण को निर्धारित करने हेतु आयोजित किया गया था। इस मौके पर अधिकारियों ने क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया और विभिन्न भू-तकनीकी व सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संभावित मार्गों का मूल्यांकन किया। संयुक्त सर्वेक्षण का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, गश्त व्यवस्था को आसान बनाना और आवागमन में सुधार लाना है। इस पहल से सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को भी यातायात की बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत व बचाव कार्यों में तेजी आएगी।

संक्षिप्त समाचार

19 मार्च को जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक का किया जायेगा आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर- जिला सूरजपुर अंतर्गत कर्मचारियों के समस्याओं के निराकरण के संबंध में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में 19 मार्च को जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रातः 11:00 बजे आहुत की जायेगी। निर्धारित समय पर बैठक में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया गया है, कि सर्व कर्मचारी संघ 13 मार्च तक वर्तमान में विद्यमान मांग⁄ समस्याओं के संबंध में सूची अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय स्थापना शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को चर्चा में सम्मिलित नही

जनपद पंचायत ओड़गी एवं प्रेमनगर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ सम्पन्न

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर- कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के दिशानिर्देश और

मार्गदशन में ज्ञि*स्तर*ीय पंचा यत निर्वाचन 2025 के तहत जनपद पंचायत ओड़गी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का



हुआ। जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश रॉय, सहायक श्री नृपेन्द्र सिंह और पूरी टीम का कार्य अच्छा रहा। पुलिस प्रशासन एडीओपी श्री राजेश जोशी, श्री सौरभ उइके और पूरी टीम का सहयोग रहा इसी तारतम्य में जनपद पंचायत प्रेमनगर में भी जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन संपन्न कर लिया गया। जिसमें श्री फुलेश्वर सिंह सिदार को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर बाबूलाल अग्रवाल व अन्य संबंधित

ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज योगासन प्रतियोगिता 2025 में श्री राम प्रताप राजवाड़े ने जीता गोल्ड मेडल

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर- राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ में 5 मार्च से 8 मार्च तक

आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज योगासन प्रतियोगिता 2025 में स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वि.ख.भैयाथान



सूरजपुर में पदस्थ श्री राम प्रताप राजवाड़े 50 प्लस ऐज ग्रुप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन ट्रेडिशनल सोलो इवेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वरमेडलएवं आज दूसरे दिन आर्टिस्टिक सोलो इवेंट में प्रथम स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य को गोल्डमेडल दिलाकर सूरजपुर जिले के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने पर श्री राम प्रताप राजवाड़े को बधाई दी गई।

10 वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया औचक निरीक्षण

क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष-2025 कक्षा 10 वीं के विषय गणित (100) की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए सूरजपुर जिले के निर्धारित 73 परीक्षा केन्द्रों में कुल परीक्षार्थी की दर्ज संख्या-10201, उपस्थित-9863, अनुपस्थित-338 रहे। जिले में समस्त परीक्षा केंद्रो में परीक्षा सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई एवं कोई नकल प्रकरण दर्ज नही किया गया। श्रीमती भारती वर्मा जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के द्वारा निम्नांकित परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। जिनमें परीक्षा केन्द्र क्रमांक-741073 सेजेस∕ शा.बा.उ.मा.वि. रामानुजनगर, वि.ख. रामानुजनगर कुल दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या-217 उपस्थित-212 एवं अनुपस्थित-5, परीक्षा केन्द्र ऋमांक-741072 शा.कन्या उ.मा.वि. रामानुजनगर, वि.ख. रामानुजनगर कुल दर्ज परीक्षार्थी की संख्या-331 में से उपस्थित-324 एवं 7 अनुपस्थित, परीक्षा केन्द्र ऋमांक-741147 शा.उ.मा.वि. गणेशपुर में दर्ज-227 में से उपस्थित-212 एवं अनुपस्थित-15, परीक्षा केन्द्र ऋमांक-741060 शा.उ.मा.वि. प्रेमनगर, वि.ख. प्रेमनगर में कुल दर्ज-143 उपस्थित-143 एवं अनुपस्थित शून्य, परीक्षा केन्द्र ऋमांक-741070 सेजेस प्रेमनगर वि.ख. प्रेमनगर में कुल दर्ज परीक्षार्थियों की संख्या-48 में शत प्रतिशत उपस्थिति पाई गई। उक्त समस्त केन्द्रों में परीक्षा सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण संचालित होना पाया गया एवं कोई नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया।

One drink and many benefits, you may not know these benefits of drinking Amla Water; It is a medicine for many diseases

A good amount of vitamin C is found in Amla. Apart from this, Amla contains a good amount of antioxidants and many essential nutrients. It is a boon for health in a way. If you drink Amla

water (Benefits of Amla Water) on benefits from it. It is also a medicine Amla water gives many amazing Drinking Amla water on an empty antioxidants and many essential from inside, it also strengthens the stomach in the morning, its clean, which keeps the digestive this, it makes the skin glowing by in reducing weight, as it speeds up are suffering from diabetes, high medicine. It keeps blood sugar from premature graying. Overall, gives many benefits to the body immunity - As you all know that function of white blood cells, the also strengthens immunity. It helps us tell vou that fiber and





an empty stomach every morning, then you will get many for many diseases. Amla is very beneficial for the body. Drinking benefits. Amla helps in strengthening the immune system. stomach in the morning is a boon for health. Vitamin C, nutrients are found in Amla. Along with detoxifying the body immunity. If it is taken with lukewarm water on an empty benefits are doubled. Amla water helps in keeping the stomach system healthy and removes problems like acidity. Apart from removing toxins from the body. Apart from this, it is also helpful metabolism and promotes fat burning process. For those who cholesterol or hair problems, Amla water is no less than a under control, strengthens the hair roots and prevents them drinking Amla water on an empty stomach in the morning and maintains energy throughout the day. Helpful in increasing Amla is rich in vitamin C. It increases the production and body's primary defense against infection. Apart from this, it in fighting cold and other diseases. Helpful in weight loss Let antioxidant properties are found in gooseberry, which help in

reducing weight. Improves digestion too- If you drink gooseberry water daily, it improves your digestive system. Gooseberry contains fiber, which helps in keeping the digestive system healthy. Along with this, gooseberry contains chromium, which helps in controlling diabetes. Not only this, gooseberry contains potassium, which helps in improving heart health. Healthy skin Antioxidants are present in gooseberry. These are helpful in reducing stress and promoting collagen production. If you drink gooseberry water daily, the elasticity of the skin increases, which reduces the signs of aging and also makes the skin glowing.

Mix this one thing in Chia Seeds Water and drink it, weight loss will happen; skin will also get a glow

Nowadays people have become very conscious about their health. That is why many people like to drink a glass of water mixed with chia seeds in the morning (Chia seeds water with honey

Benefits). This also gives many and play an important role in weight loss. important role in weight loss. Drinking **Drinking chia seeds water strengthens** this, people do exercise yoga, but in a simple mixture can have a magical effect and honey, these two things are probably that consuming them in the right way can in strengthening the digestive system. It omega-3 fatty acids present in chia seeds overeating. At the same time, honey also reduce the craving for sweets. routine, you can bring miraculous Loss- Chia seeds contain high fiber, stomach full for a long time. This can also reducing weight rapidly. Control sugar definitely drink chia seeds water mixed are known to slow down the absorption



miraculous benefits to health. Chia seeds are rich in nutrition They keep the stomach full for a long time. Chia seeds play an chia seeds water in the morning can give many benefits. the digestive system. Nowadays everyone wants to stay fit. For busy life, this is not possible for everyone. Do you know that a on your health? Yes, Chia seeds (Chia seeds for weight loss) already present in your kitchen, but have you ever thought reduce your weight. Along with reducing weight, it also helps also brightens your skin. Its effect is very deep. The fiber and keep the stomach full for a long time. This can prevent (Honey for glowing skin) provides energy to the body. It can Overall, by including chia seeds and honey in your daily changes in health. Let's know in detail- Beneficial in Weight which keeps the digestive system healthy. It also keeps our prevent overeating. This is the reason why it is helpful in level Those who want to control blood sugar level should with honey. This can be very beneficial. Actually chia seeds of carbohydrates. This can maintain the blood sugar level.

Strengthen the digestive system - Drinking chia seeds water strengthens the digestive system. The fiber present in it removes the problem of constipation and cleanses the intestines. It provides relief from stomach related problems like gas, acidity and indigestion. Strengthen immunity - For people who have weak immunity, drinking chia seeds and honey water can prove to be very beneficial. This drink should be drunk every morning. Increase energy level - The protein and omega-3 fatty acids present in chia seeds give energy to the body. Drinking chia seeds water in the morning makes you feel energetic throughout the day and reduces fatigue. Also improves facial complexion- Chia seeds and honey are also very beneficial for the skin. Chia seeds contain antioxidants which are capable of fighting free radicals. Apart from this, they also help in improving the complexion of the skin. On the other hand, antibacterial properties are found in honey, which keeps the skin hydrated. How to make chia seeds and honey water?- To make chia seeds water, add one spoon of chia seeds in a glass of water and soak it for 10-15 minutes. After this, when the water is ready, mix one spoon of honey in it and drink it.

The risk of cervical cancer increases in women after a certain time, know the reasons and prevention methods here

This is a

Due to poor lifestyle and negligence in eating, people are becoming victims of serious diseases like cancer. Especially the problem of cervical cancer is being seen more in women these days. In such a situation, it is important that its signs are recognized in advance so that this disease can symptoms - Cervical cancer is one of the most serious cancers in women. the cervix. It is very important to identify its symptoms and get timely is getting very bad. Due to junk food, staying up late at night, spending hygiene, people are falling prey to many types of diseases. Cancer is also serious problem spreading rapidly these days. There are many types of it, which occur in different parts of the body. Cervical cancer is one such type of this serious On the occasion of International Women's Day, we are going to tell you about its know in detail - What is cervical cancer? Let us tell you that cervical cancer is one reproductive organs of women. When cancer starts in the cervix of women, it is is caused by a virus called Human Papilloma Virus (HPV). All women infected Recognize the signs Some diseases appear in the body without any specific know, the condition worsens. Cervical cancer is also one such disease. It grows of the body, it can be identified and treated early. Usually, this disease is seen in serious disease with these common symptoms Frequent urination White discharge bleeding Loss of appetite or eating very little Feeling very tired Pain or swelling and lethargy Pain during sex Bleeding after sex More bleeding than usual back Lumps or warts in the vagina Cause of cervical cancer The to the spread of HPV (Human Papilloma Virus) virus in the body. reason for this. It has been found in many studies that the possibility if there is a family history. Not only this, cervical cancer is also a sexually situation, this disease can also occur due to unsafe sex. How to prevent serious disease, you can get vaccinated against Human Papillomavirus

be treated in time. Let's know about the serious type of cancer, which occurs in treatment. Nowadays people's lifestyle hours on the screen, not maintaining one of them. Cancer is becoming a are known by their names because they disease which is very fatal for women. risk factors and prevention. Let us of the five serious cancers that affect the called cervical cancer. Cervical cancer with HPV are at risk of cervical cancer. symptoms. By the time we come to slowly, but if we understand the signs women after the age of 35. Identify this Heartburn and loose motion Abnormal in the lower abdomen Often mild fever during periods Constant pain in the problem of cervical cancer is seen due Apart from this, heredity is also a major of this cancer increases in women even transmitted disease (STD). In such a this serious disease: To prevent this (HPV). The best time for vaccination is

before getting infected with any potential virus. For Human Papillomavirus (HPV), this time is usually in early adolescence. Using condoms during safe sex can help reduce the risk of HPV transmission. However, this is not 100 percent guaranteed. Including a diet rich in fruits and vegetables in the diet can also reduce the risk of cervical cancer.

Govinda broken by the death of 'Partners in...', Vijay Varma former secretary, could not hold found another partner as soon back tears at the funeral; This video as he broke up with Tamannaah of the actor will make you emotional

Actor Govinda has suffered a major setback. Recently, the actor's former secretary Shashi Prabhu passed away. He is in mourning due to the death of the former secretary. He attended



the funeral of Shashu Prabhu from where an emotional video of him has surfaced on social media. In the clip, he was seen crying in memory of Shashi. Bollywood actor Govinda is in a mountain of sorrow. His former secretary Shashi Prabhu has passed away. As soon as the actor came to know about his death, he became inconsolable. An emotional video of Govinda has surfaced from Shashi Prabhu's funeral. According to the Times of India report, Shashi died in Mumbai on Wednesday. His funeral took place last evening. Govinda was also present there during this time. The actor is so broken by the death of Shashi that he could not even control his tears at his funeral. Govinda seen crying- A video of Govinda has surfaced on social media in which the actor is seen crying. In the clip, the actor is seen wiping his tears. The actor present at the funeral is seen getting emotional in white clothes. Seeing this emotional video of him, the fans also became sad. People are encouraging the actor on social media. Govinda's current secretary Shashi Sinha talked about the actor's relationship with Prabhu. Talking to ETimes, he said, "He was Govinda's childhood friend. They had a very close relationship from the beginning and he also worked for Govinda for many years. I got to know him later but he was like a brother to Govinda during his initial struggles. Govinda loved him like a brother and their relationship is the same even today." Not only this, Shashi also supported Govinda a lot in his political journey. Govinda was in the news for divorce Govinda was in the news for the last few days due to the news of his divorce with wife Sunita Ahuja. It was being said that Sunita had sent him a divorce notice. However, the actor's lawyer had said that Sunita had sent him a divorce notice, but now everything is fine between them. The two are not separating.

Bhatia? He shared such a post

The news of the separation of Vijay Varma and Tamannaah Bhatia, one of the famous star couples of B-town, is spreading like fire in the glamour world. Amidst these rumours, Vijay Verma has shared his first post on social media. It is known that Tamannaah and Vijay Verma were dating for the last two years. Vijay and Tamannaah were in a relationship for

years-Rumors Tamannaah-Vijay's breakup in the headlines, discussion of the couple's separation a week ago- Vijay Verma and Tamannaah Bhatia are one of the most loved couples of B-town. Ever since the two made their relationship official, people



have been liking their chemistry. Fans also wanted to see them getting married, but before this dream could be fulfilled, the news of the breakup came in the headlines. Yes, there is a buzz in the film circles that Vijay Verma and Tamannaah Bhatia have parted ways. There is news of the two breaking up a week ago. However, no official confirmation has been made about this yet. Meanwhile, Vijay has released the first post. Where is Vijay Verma busy amid the breakup? - Amidst rumors of breakup with Tamannaah, Vijay Verma has shared the first post on social media. In this post, he was seen talking about partners. Actually, Vijay Verma is going to host IIFA 2025. The actor has shared pictures backstage and with co-stars. Vijay's first post about partners - In the first photo, he is backstage, while in the second photo he can be seen in host mode. In one picture, Vijay Stree actors Abhishek Banerjee and Aparshakti Khurana are seen posing together. With this, he wrote in the caption, "Partners in Rhyme." He has also reached Jaipur for the shooting of IIFA, where the award function is going to be hosted. Why did Vijay and Tamannaah separate? Tamannaah and Vijay Verma were dating each other for the last 2 years. During the New Year of 2023, their kiss photo went viral, after which the news of their affair came. Later the couple themselves made it official. Since then, both were in the limelight due to their dating. However, after two years of dating, the news of their separation is going viral. Why did Vijay and Tamannaah separate? Tamannaah and Vijay Verma were dating each other for the last 2 years. During the New Year of 2023, their kiss photo went viral, after which the news of their affair came. Later the couple themselves made it official. Since then, both were in the limelight due to their dating. However, after two years of dating, the news of their separation is going viral.

The actress refused to film a kissing scene with the father of 3 children, the actor got angry on the set!

In the case of kissing scene (Hot Kissing Scene), today we will mention about a famous actress of B Town who flatly refused to film a kissing scene with a veteran Bollywood actor. That actor

is the father of 3 children in refused, the film artist got angry on the set after ready for a kissing scene with anger on the actress. The deep. There are many such controversies in it, about mention, it will be less. Today interesting story related to a when she flatly refused to kiss the actor got angry and he this, he made strong Let us know which two connected to. Actress refused use kissing scenes to make are filmed with the consent the problem arises when one such scenes. A similar the film Saat Khoon Maaf, flatly refused to film a kissing **Actually Saat Khoon Maaf** popular movie. Based on the to film kissing and intimacy hearing Annu's name, reports are to be believed, he is an aged actor and is the





real life. After the actress furious on the set. The actor got hearing that the actress was not the actor, later he vented his history of Hindi cinema is very interesting stories and which no matter how much we we are going to tell you an famous Bollywood actress, a 68-year-old actor. After this, became angry on the set. After statements against the actress. celebs this whole matter is to do kissing scene Filmmakers films interesting. Such scenes of the actor and the actress. But of the two is not ready to do situation was seen on the set of when actress Priyanka Chopra scene with Annu Kapoor. movie is Priyanka Chopra's demand of the script, she had with Annu Kapoor. But on Priyanka refused to do it. If Priyanka Chopra believed that father of three children in real

life. Apart from this, he is not even a lead actor. After this, Annu Kapoor was very angry and he expressed his displeasure on the set. He felt that Priyanka had insulted him. Annu Kapoor spoke openly about this in an interview given to news agency ANI. Annu Kapoor had expressed his anger after years- Annu Kapoor had expressed his anger after years regarding this matter. He had said that if I had been a handsome hero, she would not have refused to kiss me at that time. According to her, I was old, my looks were not good. That is why she did not film that scene. After this, Priyanka Chopra had replied that as a senior actor, it does not suit Annu to say all this.